

रोज नहीं खाएं अण्डे

अगर आप रोजाना अंडे खा रहे हैं तो इनको खाना छोड़ दीजिए। नए शोध में पता चला है कि जो रोज अंडे खाते हैं वह बीमार जल्द पड़ते हैं। अंडे का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए।

अंडे में अमीनो एसिड अधिक


अंडे में सेलीनियम, बीटा कैरोटीन और लेसिथिन जैसे अमीनो एसिड होते हैं, जो एंटी ऑक्सिडेंट का काम करते हैं। हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छे हैं, परन्तु एक तो अंडे से मिलने वाले कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले में ये एसिड इतने कम होते हैं कि हार्ट को ज्यादा सुरक्षा दे नहीं पाते, दूसरे ये तभी काम कर पाते हैं, जबकि व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल और बाकी लेवल नॉर्मल हों।



प्राप्त भोजन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जबकि पेड़-पौधों से मिलने वाले भोजन से नहीं बढ़ता।

कौन खा सकता है अंडे

डॉक्टरों का कहना है कि बिना जरूरत के अंडे खाना लकवे, नपुंसकता, पैरो में दर्द, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, मोटापे और हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज को न्यूनतम है। नॉर्मल लोग भी खाएं तो हर छह महीने पर कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहें। हां,



जिसको हार्ड प्रोटीन डाइट की जरूरत हो वे अंडा ले सकते हैं, पर वह भी तब, जब वे पहले से अंडा खाते आ रहे हों। कम वजन वालों, बीमारी के बाद बहुत कमजोर हो गए और टीबी के मरीजों को प्रोटीन की जरूरत होती है, उन्हें खाने के लिए बताया जा सकता है। आम स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी डॉक्टर की राय से ही एक अंडा रोज खा सकते हैं।

आम आदमी रोज अंडा नहीं खाएं

वैसे, आम आदमी को अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक प्रतिशत कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दो प्रतिशत हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। शूगर या मधुमेह, हार्ड बीपी, हार्ट पेशेंट्स, मोटापे से पीड़ित और कोलेस्ट्रॉल के रोगियों को डॉक्टर ही जांच के बाद बता सकता है कि उनके शरीर को अंडों की जरूरत है या नहीं।

क्या यह सच है कि अगर सेहत बनानी हो तो रोज अंडे पेट में उतार लिया करो। जबकि सच्चाई यह है कि ऐसा करना आ बैल मुझे मार जैसी बात कहना है, क्योंकि बिना डॉक्टर से पूछे किसी को भी अंडे खाने ही नहीं चाहिए। खासकर, शूगर, हार्ड बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के पेशेंट्स और मोटापे वालों को तो अंडों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अंडे उनके रोग को और बढ़ा सकते हैं।

सेहत के लिए ठीक नहीं

डॉक्टरों का कहना है कि इस बारे में 1999 में जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन में बॉस्टन के हावर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के न्यूट्रिशन विभाग के डॉ. ह्यू एफ वी एंड गुप की रिपोर्ट में कहा गया था कि बीपी, हार्ट, शूगर और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए अंडा खाना ठीक नहीं है, जबकि अभी तक इस बारे में एक भी भारतीय रिपोर्ट सामने नहीं आई कि रोज अंडे खाने से सेहत बनती है या आप स्वस्थ रहोगे। जबकि सबसे ज्यादा शूगर, बीपी आदि के मरीज भारत में ही हैं। इसलिए रोज अंडे खाना किसी भी तरह से ठीक नहीं है।

ज्यादा प्रोटीन खतरनाक

हृदय रोग विशेषज्ञों का कहना है कि एक अंडे में 213 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है यानी आठ से नौ चम्मच मक्खन के बराबर, क्योंकि एक चम्मच मक्खन में 25 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। इसलिए सिर्फ शूगर, हार्ड बीपी और हार्ट पेशेंट्स को ही इन्हें दूर से सलाम नहीं करना चाहिए, बल्कि सामान्य सेहत वाले लोगों को भी अगर डॉक्टर प्रोटीन की जरूरत बताये, तभी खाना चाहिए।

विज्ञापनों में प्रचार गलत

प्रिवेटिव हेल्थ कनसल्टेंट का कहना है कि रोज अंडे खाने की बात भ्रामक है। ऐसे विज्ञापनों से लगता है सेहत के लिए अंडा ही सब कुछ है बाकी चीजें नहीं। अंडे से बहुत ज्यादा फैट व चिकनाई मिलती है, जो कोलेस्ट्रॉल, दिल के दौर, हार्ड बीपी और शूगर की तरफ धकेल सकता है। आजकल हर आदमी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, इसलिए डॉक्टर से पूछ कर ही अंडे लें।

ज्यादा कैलोरीज की जरूरत नहीं

अंडे में जितनी हार्ड कैलोरीज व कार्बोहाइड्रेट होती है, उतनी शरीर को जरूरत नहीं होती। अंडे को दवाई भी नहीं माना जा सकता। जितनी एनर्जी यह देता है, इससे तो शरीर को नुकसान ही होगा। अंडे से शरीर का अनन्वय विकास होने से शरीर अधिक बेडोल हो सकता है। किडनी व हार्ट के लिए तो नुकसानदायक है ही। अंडे से कार्य करने की क्षमता सिर्फ क्षणिक तौर पर बढ़ी हुई लगती है, पर स्ट्रेंड मिना।

एक अंडे में प्रोटीन

कैलोरीज - 78 एमजी

कोल - 78 एमजी

सोडियम - 62 एमजी

(इससे बीपी व हार्टबीट बढ़ सकती है)

फैट - 5.3 ग्राम

प्रोटीन - 6 ग्राम

फ्राइड किए जाने पर अंडे में कैलोरीज-100 और बढ़ जाती है।

नहीं बढ़ता। फार्मिंग से आए अंडे तो केमिकल की वजह से ज्यादा दूधित या जहरीले हो जाते हैं। गर्मियों में पाचन वीक होता है। ऐसे में सामान्य तौर पर ज्यादा कैलोरी व गरिष्ठ होने के कारण अंडे और ज्यादा नुकसानदायक हैं।

दालों में भरपूर प्रोटीन

विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोटीन के लिए तो सभी तरह की दालें, पनीर व दूध से बनी चीजें अंडे का विकल्प होती हैं। अंडों की जगह उनका इस्तेमाल करें। दूध या स्किम्ड मिल्क, मूंगफली, ड्राई फ्रूट में अखरोट, बादाम, काजू व हरी सब्जियां, दही, सलाद और फल भी ले सकते हैं। जीव-जंतुओं से

कोशिकाओं के लिए फायदेमंद

राइबोफ्लेविन को विटामिन बी-2 के नाम से यादा जाना जाता है, विटामिन बी-2 शरीर की कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक घटक है। बीन्स विटामिन बी-2 का मुख्य स्रोत होते हैं। प्रति सौ ग्राम फ्रेंच बीन्स से तकरीबन 26 कैलोरी मिलती है। राजमा में यही सब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए प्रति सौ ग्राम राजमा से 347 कैलोरी मिलती है। बीन्स सोल्युबल फाइबर का अच्छा स्रोत होते हैं और इस कारण हृदय रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है।

ऐसा माना जाता है कि एक कप पका हुआ बीन्स रोज खाने से रक्त में



फ्रेंचबीन से फटाफट सेहत

कोलेस्टेरोल की मात्रा 6 हफ्ते में 10 प्रतिशत कम हो सकती है और इससे हृदयाघात का खतरा भी 40 प्रतिशत तक कम हो सकता है। बीन्स में सोडियम की मात्रा कम तथा पोटेशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है और लवणों का इस प्रकार का समन्वय सेहत के लिए लाभदायक है। इससे रक्तचाप नहीं बढ़ता तथा हृदयाघात का खतरा टल सकता है।

शर्करा का स्तर नहीं बढ़ता

बीन्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है इसका अभिप्राय यह है कि जिस तरह से अन्य भोज्य पदार्थों से रक्त में

शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, बीन्स खाने के बाद ऐसा नहीं होता। बीन्स में मौजूद फाइबर रक्त में शर्करा का स्तर बनाए रखने में मदद करते हैं। और बीन्स की इस खासियत की वजह से मधुमेह के रोगियों को बीन्स खाने की सलाह देते हैं।

किडनी में लाभकारी

किडनी में पथरी के लिए 60 ग्राम बीन्स की पौध लेकर इसे चार लीटर पानी में चार घंटे तक उबाल लें। फिर इसके पानी को कपड़े से छान लें और छने हुए पानी को करीब आठ घंटे तक टंडा होने के लिए रख दें। अब इसे फिर से छान लें। दिन में दो-दो घंटे से पीयें। लाभ होगा।

बीन्स एक ऐसी सब्जी है जो कि अमेरिकन, मेक्सिकन, चाईनीज, जापानी, उत्तरी व दक्षिणी भारतीय, यूरोपियन आदि तरह के भोजन में सामान्यतः मिलती है। आप सलाद लें या स्टार्टर्स, सूप से लेकर बर्गर टिक्की तक हर जगह बीन्स (फलियां) किसी न किसी रूप में आपको नजर आ जाएंगी।

ये आहार नहीं बढ़ने देंगे आपका वजन

संतुलित वजन यानी स्वस्थ शरीर। इसलिए वजन कम रखने की चाहत हर किसी की होती है। कुछ लोग डाइटिंग और एक्सइरसाइज की मदद से अपना वजन तो कम करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनका वही पुराना हाल हो जाता है। कम हुआ वजन दोबारा से न बढ़े इसके लिए जरूरी है संतुलित आहार और सही जानकारी।



वजन घटाने वाले आहारआपको यह जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार का आहार आपके कम हुए वजन को बरकरार रखने में मददगार साबित होगा। यदि आप भी वजन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो सबसे पहले रेस्टोरेंट आदि के खाने से बचना चाहिए। इस लेख के जरिए हम आपको बता रहे हैं अपनी डाइट में शामिल करने वाले ऐसे आहारों के बारे में जिनसे शरीर को प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा तो मिलेगी ही और आपका वजन भी नियंत्रित रहेगा।

अंडा

अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है। इसका सेवन आपको लंबे समय तक भोजन की जरूरत से दूर रखता है। अंडा खाने से ब्लड शुगर होने का खतरा भी कम रहता है। ब्लड शुगर वाले रोगियों को खाने की तीव्र इच्छा होती है। सामान्य से अधिक वजन वाली 30 महिलाओं पर किए गए अध्ययन से साफ हो चुका है नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स खाने वाली महिलाओं के मुकाबले अंडा खाने वाली महिलाओं ने अगले 36 घंटे तक भोजन का कम मात्रा में सेवन किया। अंडे का सेवन आपको लंबे समय तक भूख से राहत देता है।

ग्रीन टी

ग्रीन टी का सेवन वजन कम करने वाले तरल पदार्थ के रूप में किया जाता है। एंटीऑक्सिडेंट होने के कारण ग्रीन टी वसा को तेजी के साथ कम करने में मदद करती है। यह बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) को सही रखने के साथ ही एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कम रखती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या बड़ कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी से शरीर का वजन बढ़ता है।

सलाद

लंच के साथ सलाद खाने से कैलोरी की मात्रा नियंत्रित रहती है। शोधकर्ताओं के मुताबिक सलाद के सेवन से आपको भूख कम लगती है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, विटामिन ई, फोलिक एसिड और लाइकोपीन होता है। इन सभी की मौजूदगी शरीर पर चर्बी जमने से रोकती है।

मसूर की दाल

मसूर की दाल के सेवन से भी व्यक्ति मोटापे से बचा रहता है। इसे खाने से शरीर में इन्सुलिन की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है। बाजार में मसूर की दाल कई तरह की आती है, लेकिन लाल और पीली दाल 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाती है। इसे यदि पारस्ता सॉस के साथ पकाया जाए तो यह हार्ट के लिए भी फायदेमंद होती है।

अनार

अनार का जूस आपको हर तरह से स्वस्थ बनाता है। इसमें कम कैलोरी और फाइबर की अधिक मात्रा होती है। इसके सेवन से शरीर में एनर्जी आती है और भूख का कम अहसास होता है।

सेब

वजन को नियंत्रित करने के लिए सेब का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। यदि आप नियमित तौर पर एक सेब खाने की आदत बना लेते हैं तो यह आपके वजन को तो कंट्रोल करेगा ही, साथ ही आपको फिट भी रखेगा।

सूप

एक कप चिकन सूप पीने से चिकन पीस खाने के बराबर एनर्जी मिलती है। चिकन सूप पीने से भूख का अहसास कम होता है और शरीर में एनर्जी बनी रहती है। इसी कारण इसे पीने के बाद व्यक्ति खाने की तरफ कम भागता है।

बीन्स

बीन्स का सेवन वजन कम रखने में बहुत मददगार है। बीन्स में फाइबर पाया जाता है। शरीर में फाइबर की मात्रा बने रहने पर भूख का अहसास कम होता है। फाइबर ज्यादा मात्रा में होने पर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम रहती है।



मौसम करे बीमार रसोई करे उपचार

बीते दिनों मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला। आंधी, बारिश और हल्की ठंडक ने हमारी दिनचर्या के साथ सेहत को भी खराब किया। किसी का गला बैठ गया तो किसी को जी मिचलाने की शिकायत होने लगी। क्या आप जानते हैं कि ऐसी छोटी-मोटी मौसमी शिकायतों के समाधान आपकी रसोई में मौजूद हैं। जब भी मौसम बदलने के कारण आपका पाचन तंत्र गड़बड़ाए, आपको जी मिचलाने या उल्टी की शिकायत महसूस हो तो आप दालचीनी और अदरक का सेवन करके राहत पा सकते हैं। अदरक जी मिचलाने की सबसे कारगर दवा मानी

जाती है। जबकि दालचीनी उल्टी रोकने के लिए बेहतरीन घरेलू दवा है। अगर आप इन्हें सीधे-सीधे न खा सकें तो एक कप गर्म पानी में उबाल कर इनका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा सौंफ भी आपको इन बीमारियों से निजात दिला सकती है।

सौंफ से फायदा

एक चम्मच सौंफ को एक कप पानी में उबालें और सुखा कर खाएं। ये गले के लिए भी बेहतर है। अगर गले या सीने में कंजेशन जैसा महसूस हो तो भी सौंफ

आराम दिला सकती है। सौंफ के साथ अजवाइन भी आराम पहुंचाती है।

अजवाइन

गर्म अजवाइन को सीने पर लगाने से भी कंजेशन खत्म होता है। मूली में नमक और चीनी मिला कर खाने से भी इस बीमारी में आराम मिलता है।

नमक

अगर जुकाम की वजह से नाक बंद हो गई हो तो गुनगुने पानी में नमक मिला कर इसकी कुछ बूंदें नाक में डालें। नाक की सफाई के लिए ये बढ़िया उपाय है।

शहद

अगर पेट में भारीपन की शिकायत हो तो एक चम्मच शहद में एक चम्मच नींबू का रस मिला कर पीने से आराम मिलेगा। अगर पेट खराब होने का अंदेशा हो तो दूध में हल्दी मिला कर पीने से आराम मिल सकता है। अगर सोते समय टंड लगने की शिकायत महसूस हो तो लौंग, नींबू का रस गर्म पानी में मिला कर पिएं और सो जाएं। टंड महसूस नहीं होगा।





21.0° Highest Temperature
08.0° Minimum Temperature

Sunrise Tomorrow
18.25

Sunset Today
17.41

CITY

अवैध खनन के खिलाफ 2019-2023 तक दर्ज किए गए 6597 एफआईआर

12280 वाहन किए गए जब्त, सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में दी जानकारी

PHOTON NEWS RANCHI :

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में खान एवं कोयला मंत्रालय से झारखंड में अवैध खनन और इससे हो रहे जान-माल, राजस्व के बड़े नुकसान की जानकारी मांगी। इससे निबटने के केंद्र सरकार के द्वारा उठाये गये कदम से सम्बंधित सूचना की भी मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23 ग के अनुसार, राज्य सरकारों को अवैध खनन, अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों की दुलाई एवं भंडारण पर अंकुश लगाने और इससे संबंधित प्रयोजनों के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकारों को अवैध खनन से संबंधित मामले सौंपे गए हैं। झारखंड सरकार से राज्य में अवैध खनन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए कई बार अनुरोध किया गया है फिर भी उसके द्वारा कोई सक्रिय कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।



राज्यसभा में अपनी बात रखते सांसद दीपक प्रकाश

श्री जोशी ने आगे बताया कि झारखंड सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य में अवैध खनन के खिलाफ 2019 से लेकर नवम्बर 2023 तक कुल 6597 एफआईआर दर्ज की गई थी। दुलाई में उपयोग किये गए कुल 12,280 वाहनों को जब्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक झारखंड खनिज (अवैध खनन, दुलाई और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 (यथा संशोधित) की धारा 23 ग (1) और 23 ग (2) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया

है कि राज्य में प्रमुख खनिजों के लिए खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) और कोयले के लिए हूखनन प्रहरीह के अलावा राज्य सरकार ने गौण खनिजों के लिए एमएसएस शुरू किया है। राज्य सरकार द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु ई-परमिट, ई-चालान, ई-भुगतान आदि जैसे खानों और खनिजों से संबंधित सभी प्रकार के ऑनलाइन लेन-देन के लिए झारखंड एकीकृत खान और खनिज प्रबंधन प्रणाली (जेआईएमएमएमएस) कार्यान्वित की गई है।

डाकघर से जुड़ी योजनाओं में झारखंड के लोगों ने जमा किए ₹34595 करोड़

PHOTON NEWS RANCHI :

डाकघर से जुड़ी योजनाओं में झारखंड के लोगों ने 34595 करोड़ रुपए जमा किए हैं। साथ ही धुवां डाकघर में हुए वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में इसका मुख्य अपराधी एनएसएस का एजेंट है, जिसे राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किया गया था। इस मामले में प्राथमिक भी दर्ज की गई है। इसके साथ ही डाक विभाग ने चार विभागीय कर्मचारियों को इस मामले में निलंबित किया है। ऐसे लोक शिकायत और दावों की जांच के लिए डाक विभाग ने व्यवस्था बनाई है, जहां शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है। डाक आशय की जानकारी केंद्रीय संचार राज्यमंत्री देवू सिंह चौहान ने लोकसभा में गुरुवार को रांची के सांसद संजय सेठ के सवाल के जवाब में दी। सांसद ने लोकसभा में



झारखंड में डाकघर के द्वारा खोले गए खातों, योजनाओं में जमा की गई धनराशि, डाकघर में हो रही वित्तीय गड़बड़ी से संबंधित मामले को लोकसभा में उठाया था। अपने जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि झारखंड में विभिन्न योजनाओं के तहत खाता खुलवाने और राशि जमा करने में लोगों ने बड़ी अच्छी रुचि दिखाई है। विभिन्न योजनाओं को लेकर झारखंड में बेहतर संचालन भी किया गया है। डाक

विभाग के माध्यम से संचालित हो रही योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री ने राज्य का जिलावार ब्यौरा भी उपलब्ध कराया है। इसके तहत रांची में किसान विकास पत्र के तहत 240781, मासिक आय के तहत 32629, महिला सम्मान बचत पत्र के तहत 2779, राष्ट्रीय बचत पत्र के तहत 279828, राष्ट्रीय बचत योजना के तहत 750 और लोक भविष्य निधि के तहत 11846 खाते खोले गए हैं। इसके अलावा आवर्ती जमा के तहत रांची जिले में 335438 खाते, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत 8116 खाते, डाकघर बचत खाता के तहत 155480 खाते, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 69352 खाते, सावधि जमा के तहत 72764 खाते खोले गए हैं।

प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर भाजयुमो का राजभवन के पास धरना, सीबीआई जांच की मांग यह भ्रष्टाचार सिर्फ नवजवानों के साथ ही नहीं, पूरे प्रदेश के साथ : बाबूलाल मरांडी

PHOTON NEWS RANCHI :

भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की ओर से जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर गुरुवार को राजभवन के समीप एकदिवसीय धरना दिया गया। धरना में शामिल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार के विरोध में भाजयुमो के कार्यकर्ता एकत्र होकर राजभवन के पास धरना में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार सिर्फ नवजवानों के साथ ही नहीं पूरे प्रदेश के साथ है। बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार के संरक्षण में जेएसएससी के कुकर्म की सजा युवा ही नहीं पूरा प्रदेश भुगत रहा है। झारखंड के लोग माइ भात खाकर अपने बच्चों की किसी



धरना-प्रदर्शन के दौरान संबोधित करते पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी।

तरह पढ़ाते हैं, बच्चे दिन-रात मेहनत करते हैं ताकि किसी तरह से सफल हो जाए, वैसे ही हार बच्चों के साथ यह सरकार आघात कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पैसा लेकर युवा पदाधिकारी या कर्मचारी बनाता है, तो यह स्पष्ट है कि कर्षण की बुनियाद पड़ेगी और उससे कर्षण ही फले

फूलेगा। पहले भी ऐसी कई तरह की परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आई थी, लेकिन तब हेमन्त सरकार मामले को तैयार नहीं थी, लेकिन छात्रों ने जब सड़क पर उतर कर विरोध किया और सारा सबूत दिखाया तो सरकार को स्वीकार करना पड़ा। जब छात्र अपने अधिकार को लेकर सड़क पर उतरते

हैं तो उसके ऊपर लाठीचार्ज कर धायल किया जाता है। संगीन धाराओं के साथ केस कर डराने की कोशिश की जाती है। मरांडी ने कहा कि मैं शुरू से कह रहा था कि इतना बड़ा पेपर लीक का घोटाला बिना 'ऊपर' अर्थात् मुख्यमंत्री कार्यालय की संलिप्तता के बगैर नहीं हो सकता है। आज यह बात साबित हो रही है। यह बातों में शुरू से कह रहा था लेकिन आज इंडी ने हेमन्त सोरेन की रिमांड अर्थात् बहाने के लिए 539 पन्नों की जो जानकारी कोर्ट में दी है, उसमें लिखा गया है कि हेमन्त के करीबी मित्र आर्किटेक्ट विनोद सिंह के मोबाइल और घर से छात्रों के बड़ी संख्या में एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं, जिन्हें पैसे लेकर बहाल किया जाना था।

तापमान में दर्ज की जा रही गिरावट, कल से छाएंगे बादल

PHOTON NEWS RANCHI :

राज्य के तापमान में पिछले कुछ दिनों से गिरावट दर्ज की जा रही है। सिर्फ पिछले 24 घंटे में तापमान में चार डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गयी है। तापमान में गिरावट के साथ ही लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं, सुबह-शाम चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण कनकनी का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की मानें तो आने वाले दो दिनों तक तापमान में गिरावट दर्ज की जायेगी। जो चार डिग्री तक की होगी। वहीं दस फरवरी से न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जायेगी। जो बादल छाये रहने के कारण होगा। इस दौरान

न्यूनतम तापमान में चार डिग्री तक की वृद्धि की संभावना है। 11 से 13 फरवरी तक राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसमें उत्तर पश्चिमी, उत्तर और निकटवर्ती मध्य भाग शामिल है। इसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, कोडरमा, खूंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला जिला शामिल है। पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान की बात करें तो गुमला का तापमान 4.9 डिग्री दर्ज किया गया। चतरा और गढ़वा का तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस, गिरिडीह, गोड्डा, रामगढ़ का तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया।

पेपर लीक मामले : रांची आईजी आवास में एसआईटी पर प्रताड़ित करने का आरोप, मुख्य सचिव को लेटर

CRIME REPORTER RANCHI :

जेएसएससी पेपर लीक मामले में जेएसएससी के पदाधिकारियों ने रांची आईजी आवास में एसआईटी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर जेएसएससी के पदाधिकारियों ने गुरुवार को मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। लिखे पत्र में कहा है कि 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली गई थी। जिसमें पेपर लीक होने की घटना आमने आई। जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दी गई। परीक्षा में संचालित पदाधिकारियों को अपराधियों की भांति जोनल आईजी के आवासीय कार्यालय, रांची में आयोग के सभी पदाधिकारी /

इस कदाचार में आयोग के किसी पदाधिकारी की संलिप्तता नहीं

मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा मुख्य सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग और प्रेस मीडिया को स्पष्ट सूचना दी गई है कि इस कदाचार में आयोग के किसी पदाधिकारी/कर्म की संलिप्तता नहीं है। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आयोग के तत्वावधान में आयोजित परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने से

लेकर परीक्षाएँ तैयार करने तक की सारी प्रक्रियाएँ आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संचालित कराई जाती हैं। किन्तु परीक्षाओं का परीक्षा केंद्र कौन सा होगा, परीक्षा प्रश्नों का चयन कौन विशेषज्ञ करेंगे, प्रश्न कौन से होंगे, उनके उत्तर क्या होंगे, किस परीक्षाओं को कौन सा प्रश्न सेट उत्तरित करने के लिए दिया जायेगा, ऐसे किसी भी बिन्दु पर किसी भी प्रकार की

कोई भी जानकारी संबंधित परीक्षा की समाप्ति तक आयोग के किसी भी स्तर के कर्म या पदाधिकारी को नहीं होती है। अध्यक्ष के स्पष्टीकरण के बावजूद आयोग के पदाधिकारी / कर्म के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार करना न्यायसंगत नहीं है। उक्त जांच के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना आवश्यक होने पर आयोग द्वारा जांच के लिए एसआईटी को पूरा सहयोग दिया

कर्म पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन गुरुवार को परीक्षा से संबंधित पदाधिकारियों को अपराधियों की भांति जोनल आईजी के आवासीय कार्यालय, रांची में बुलाया गया। जिसमें उक्त दोनों

पदाधिकारियों द्वारा ससमय जांच में सहयोग के लिए उपस्थित दर्ज कराई गई। परंतु वरीय पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के क्रम में परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में संदिग्ध अपराधी का नाम बताने के लिए दबाव बनाया

गया तथा अमर्यादित व्यवहार किया गया। उक्त घटना से आयोग कार्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्म जो आयोग में प्रतिनियुक्त हैं, पूरी तरह से भयभीत हैं एवं कार्य करने में असहज महसूस कर रहे हैं।

फुलेश्वर गोप की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, एनआईए को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश

शेल कंपनी में फुलेश्वर गोप डायरेक्टर थे या नहीं : हाईकोर्ट

PHOTON NEWS RANCHI :

झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई द्वारा उगाहे गए लेवी का पैसा शेल कंपनी शिव आदि शक्ति इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में निवेश से संबंधित मामले के आरोपित फुलेश्वर गोप की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने एनआईए से पूछा है कि वह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी (आरओसी) कालकाता से पता कर बताए कि फुलेश्वर गोप शिव आदि शक्ति इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड



के डायरेक्टर थे या नहीं? कोर्ट ने मामले में एनआईए को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 28 फरवरी निर्धारित की है। इस कंपनी में प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई

के सुप्रियो दिश गौप की पत्नी हीरा देवी भी डायरेक्टर थी। आरोप है कि इस शेल कंपनी के माध्यम से पीएलएफआई द्वारा अर्जित लेवी का पैसा विभिन्न कामों में लगाया जाता था। इस मामले में फुलेश्वर

अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा की जमानत पर सुनवाई पूरी

RANCHI : झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को टेंडर मनेज करने और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपत्ति हेमन्त सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। इंडी

की विशेष अदालत ने पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत के तलाशी ली थी। इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी। इस तलाशी अभियान के दौरान इंडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूक और कार्टूस भी जब्त किये थे।

11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है। वहीं इंडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बड़हरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी। इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी। इस तलाशी अभियान के दौरान इंडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूक और कार्टूस भी जब्त किये थे।

गोप तीन साल छह माह से जेल में है। मामले को लेकर बेड़ो थाना कांड संख्या 67/2016 दर्ज किया

गया था। केंद्र सरकार द्वारा इस मामले को एनआईए जांच के लिए हैंडओवर किया गया था। इसके

बाद एनआईए ने मामले में 2/2018 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है।

BRIEF NEWS

ओडिशा आदर्श विद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन



BHUBANESWAR : मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में गुरुवार को आइकोनिक ओडिशा आदर्श विद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। 25 एकड़ के परिसर में 1,000 से अधिक उच्च माध्यमिक छात्र पढ़ सकते हैं। प्रतिभाशाली छात्रों के लिए यहां आधुनिक कक्षाएं, आईसीटी लैब, ई-लाइब्रेरी, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, कौशल विकास जैसी विभिन्न सुविधाएं हैं। आदर्श स्कूल के छात्रों के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून पाठ्यक्रम और सेना में शामिल होने के उद्देश्य से विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कोचिंग की व्यवस्था की जाती है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इसके माध्यम से छात्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं और उज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

3 करोड़ रुपये धोखाधड़ी मामले में 2 गिरफ्तार

ROURKELA : राउरकेला के उदितनगर पुलिस ने 3 करोड़ 16 लाख धोखाधड़ी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 31.1.24 को गैर बैकिंग वित्तीय कंपनी सुमितोमो फिन्सु फाइनेशियल ग्रुप के वरिष्ठ प्रबंधक अरविंदो दासमल ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट दी थी कि 84 ग्राहकों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर लगभग 3 करोड़ 16 लाख का ऋण लिया है। इंटरनल ऑडिट के दौरान उन्हें पता चला कि 84 ग्राहक जो लोन के पात्र नहीं हैं, उन्होंने करीब 3 करोड़ 16 लाख का लोन लिया है। उनके दस्तावेज जाली हैं या उनके पास कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है जो उन्होंने दिखाया है। इस रिपोर्ट के आधार पर उदितनगर थाना कांड संख्या 91/25 धारा 430/406/465/467/468/471/120-बी/34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। गुरुवार को आरोपी व्यक्ति छेड़ के अभय भोल जिसने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उस पर हस्ताक्षर किए और फर्टिलाइजर के दिनेश साहू जिसने झूठी फिजिकल वैरिफिकेशन रिपोर्ट दी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में भेज दिया गया है।

राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट, सुंदरगढ़ पुरुष और महिला दोनों टीमें बनी चैंपियन



ROURKELA : 'नूवा-ओ युवा ओडिशा नवीन ओडिशा' कार्यक्रम के तहत राउरकेला में आयोजित राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में सुंदरगढ़ जिले की टीम पुरुष और महिला दोनों वर्गों में चैंपियन बनी है। बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित फाइनल मैच में सुंदरगढ़ महिला टीम ने खोरदा टीम को 7 गोल से हरा दिया। सुंदरगढ़ के विरुद्ध खोरदा ने केवल 1 गोल किया। इसी तरह पुरुष वर्ग के फाइनल में सुंदरगढ़ ने खोरदा को 3-2 से हराया और चैंपियन बना। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद्मश्री दिलीप तिर्की पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और पुरुष और महिला चैंपियन टीमों को चैंपियन ट्रॉफी और 2 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की। इसी प्रकार पुरुष और महिला दोनों उपविजेता टीमों को 1 लाख रुपये और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। पद्मश्री तिर्की प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन के लिए महिला वर्ग में सुंदरगढ़ टीम के कप्तान जीवन किशोरी टोपा को पुरस्कृत किया गया। खोरदा टीम के गोलकीपर जी तेजेश्वर राव को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को 50,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया। आज के कार्यक्रम में सुंदरगढ़ खेल अधिकारी सुदीप्त कुमार नयक, ओएसडी सुंदरगढ़ कालू चरण चौधरी भारतीय टीम के कोच बीजे करियप्पा, सीनियर कोच विल बेस्ट टोपो प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

कोड़ड़ा गीतारानी माइंस के परिवहन कार्यालय में डकैती, बंदूक की नोक पर ₹10 लाख की लूट



ROURKELA : सुंदरगढ़ जिले के कोड़ड़ा ब्लॉक स्थित गीतारानी माइंस कैम्पस के परिवहन कार्यालय से बंदूक की नोक पर 10 लाख रुपये लूट लिये गये। डकैती बुधवार आधी रात के 1 बजे के आसपास हुई। माइंस के परिवहन कार्यालय में 5 लोग पीस्टील व अन्य हथियार के साथ घुस गये। उसने वहां मौजूद कर्मचारियों पर बंदूक तान दी और उनसे पैसे लूट लिए। पैसे लूटने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए इसी परिवहन कार्यालय से खदानों से निकलने वाले टुक चालक रात में डीजल व अन्य खर्च के लिए पैसे लेते हैं। इसी का फायदा उठाकर लुटेरे इंड्रवर के भेष में कैम्पस में घुसकर लूटपाट करने में कामयाब रहे। कोड़ड़ा और लहुगीपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच कर रही है। लूट की सारी वारदातें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गईं।

बीजेडी नेता ज्ञानेंद्र जेना का निधन

ROURKELA : बीजेडी के वरिष्ठ नेता और जिला बीजेडी के महासचिव, बीरभद्रपुर और बणई के पूर्व कौशल पर्यवेक्षक ज्ञानेंद्र जेना का गुरुवार सुबह भुवनेश्वर सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वह परिवार के सदस्यों उनके साथ भुवनेश्वर में मौजूद थे। उनका अंतिम संस्कार पुरी स्वर्ग द्वार पर संपन्न हुआ। राउरकेला बीजू जनता दल द्वारा वरिष्ठ नेता ज्ञानेंद्र जेना के निधन पर शाम 5.30 बजे सेक्टर 21 दुर्गा मंडा मंडा निकट में एक शोक सभा का आयोजन किया गया था। बीजेडी नेता एवं सदस्य और उनके प्रियजन दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किए और अर्धजालि दिए।



जिला परिषद की स्थाई समिति की बैठक आयोजित

RANCHI : रांची जिला परिषद के स्थाई समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्थाई समिति के कृषि और उद्योग विभाग के सभापति आदिल अजीम और शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष ने विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक बैठक में कृषि, उद्योग शिक्षा और स्वास्थ्य की सारी योजनाओं पर चर्चा-व्यापक काम चल रहा है और लक्ष्य पर क्या काम हुआ है इस पर चर्चा की गई। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह के योजना चल रही है उसे भी चर्चा की गई। जिला परिषद के 6 स्थाई समिति के सदस्यों ने कहा कि जिला परिषद के द्वारा लक्ष्य के विरुद्ध काम हुआ है। इस पर अधिकारियों ने कहा कि हर योजना पर कई सारी बाधाएं हैं जिसे दूर कर लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला परिषद के द्वारा कृषि ऋण, समेत कई लोन पर भी चर्चा की गई और उस पर आ रही परेशानियों को दूर करने का आदेश दिया गया। बैठक में जिला परिषद सदस्य आदिल अजीम, समेत कई लोग मौजूद थे।

सूर्य की दुर्लभ प्रतिमा को लेकर आमने-सामने पुलिस पब्लिक

तालाब की खुदाई में मिली पालकालीन मूर्ति, मंदिर में रखने को तैयार नहीं था प्रशासन

एजेंसी

जमुई। जमुई में भगवान सूर्य की एक पालकालीन मूर्ति मिलने के बाद स्थानीय लोग और प्रशासन आमने-सामने आ गए। स्थानीय लोग मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने का मांग करने लगे, लेकिन प्रशासन मूर्ति को संग्रहालय ले जाना चाहता था। फिर स्थानीय लोगों ने 72 घंटे का अखंड कोतन शुरू कर दिया, जिसे देख प्रशासन को अपना कदम पीछे खींचना पड़ा और विधि विधान से मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया।



मूर्ति को गांव के ही ठाकुरबाड़ी में रख दिया गया और 72 घंटे का अखंड कोतन शुरू हो गया। लेकिन, लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस नहीं पहुंची। मूर्ति मिलने के बाद पुलिस प्रशासन मंगलवार देर रात 11 बजे तक गांव में कैप करती रही, लेकिन लोगों ने मूर्ति को छिपा दिया। बुधवार को

श्री राम' और भगवान का जयकारा लगाते ठाकुरबाड़ी मंदिर पहुंचे मूर्ति मिलने की सूचना पर स्थानीय विधायक प्रफुल्ल मांझी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोगों की आस्था के साथ मेरी आस्था भी जुड़ी है। तालाब की खुदाई में भगवान सूर्य की दुर्लभ मूर्ति मिली है। प्रशासन अपने निवमानुसार संग्रहालय ले जाना चाहते थे, लेकिन ग्रामीण



जिस स्थल से मूर्ति निकली, वहां भव्य मंदिर का निर्माण कर पूजा-अर्चना करना चाहते हैं। लोगों की आस्था खंडित न हो, इसके लिए मैं हमेशा सड़क से लेकर सदन तक खड़ा रहूंगा। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ भी हो जाएगा, हम भगवान सूर्य की मूर्ति को प्रशासन को नहीं देंगे। मूर्ति को संग्रहालय की बंद दीवारों के अंदर रखना चाहते हैं।

जबकि, भगवान की मूर्ति मंदिर में होनी चाहिए। इधर, एसडीओ अभीत तिवारी ने बताया कि खुदाई में मूर्ति मिलने की सूचना मिली है। इसकी जांच कराई जा रही है। जब तक इस पर किसी विशेषज्ञ की राय नहीं आ जाती है, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह मूर्ति प्राचीन है तो ट्रेजर एक्ट के तहत कार्रवाई की

जाएगी। जिला प्रशासन को ग्रामीणों ने मूर्ति देने के इनकार कर दिया। इसके बाद उसे गंगाजल से साफ किया और एक मंदिर में रख दिया। दूसरी तरफ, ग्रामीणों ने एक बैठक की, जिसमें निर्णय लिया कि तालाब के पास सूर्य मंदिर बनाया जाएगा और उसी में प्रतिमा स्थापित की जाएगी। पुरातत्वविद डॉ. रवि शंकर गुप्ता ने बताया कि यह मुकुटधारी भगवान सूर्य की दुर्लभ प्रतिमा है, जो पालकालीन आठवीं से दसवीं शताब्दी काल की है। यह अच्छी प्रतिमा है। दोनों हाथ में कमल, नीचे दंड और पिंगल बनी है। काले पत्थर की प्रतिमाएं जमुई और आसपास में अमूमन मिलती रहती हैं। इससे पहले 4 मार्च 2022 को सिद्धौड़ी के बगल के कुमारा गांव में मां नेतुला मंदिर स्थित तालाब की खुदाई में पालकालीन नौवीं से दसवीं शताब्दी का दुर्लभ शिवलिंग निकला था।

संक्षिप्त डायरी

3 साल की बच्ची पर गिरा गर्म पानी, झुलसी

जमुई। जमुई में खेलने के दौरान तीन साल की मासूम बच्ची पर बाल्टी भरा गर्म पानी गिर गया। जिससे बच्ची बुरी तरीके से झुलस गई। मासूम बच्ची की पहचान आरुषि कुमारी पिता सुरेंद्र पासवान चंद्रदीप थाना क्षेत्र के बाह्य इलाके के रूप में हुई है। घायल बच्ची को इलाज के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां, डॉक्टर के द्वारा इलाज किया गया। बच्ची के पेट से नीचे का भाग बुरी तरह से झुलस जाने से स्थिति नाजुक बनी हुई है। बच्ची के पिता सुरेंद्र पासवान इलैक्ट्रिक का दुकान अलीगंज में चलाता है। इस घटना के बाद बच्ची के माता पिता काफी चिंतित हैं। इस घटना को लेकर आरुषि के पिता सुरेंद्र पासवान ने बताया कि मां खाना बना रही थी। आरुषि घर में खेल रही थी। खेलते-खेलते वह गर्म पानी से भरे बाल्टी के पास पहुंच गई और बाल्टी का गर्म पानी उसके शरीर पर गिर गया। जिससे वह झुलस गई बताया गया कि बुधवार शाम आरुषि की मां खाना बना रही थी। मासूम बच्ची खेल रही थी। इसी खेलते-खेलते अचानक वो गर्म पानी उसके शरीर पर गिर गया। मासूम की रोने की आवाज सुन मां दौड़कर उसके पास आई। घायल बच्ची को आनन-फानन में पिता के द्वारा इलाज के लिए स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया गया। जहां बच्ची की स्थिति नाजुक होने के परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया।

बंद घर का ताला तोड़कर 50 हजार की चोरी

लखीसराय। लखीसराय के नया बाजार के पचना रोड बाइपास स्थित एक बंद घर से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने बुधवार की सुबह घर के मालिक को मकान का ताला टूटा देखकर दिया। वहीं घटना की जानकारी होते ही सभी लोग मौके पर पहुंचे। जिसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंचे कबेया थानाध्यक्ष ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी देते हुए घर के मालिक प्रभु मिस्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल भी मेरे घर में चोरी हुई थी। जिसके खिलाफ उन्होंने स्थानीय थाने में आवेदन दिया था। जिसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तब तक चोरों ने दूसरी बार चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। कबेया थानाध्यक्ष राववर्धन ने बताया कि चोरी की घटना की जानकारी मिली है। उक्त मामले में पीड़ित के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है, मामले की जांच की जा रही है।

सुपौल में एक घर से 10 लाख की चोरी

सुपौल सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना इलाके में चोरों एक को निशाना बनाया है। भूड़ा वार्ड 8 निवासी ब्रह्म नारायण ठाकुर के बेटे के आवासीय परिसर में घुसे चोरों ने लाखों रुपए के ज्वेलरी, बेशक्रीमती सामान और नकदी समेत लगभग 10 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। गुरुवार को त्रिवेणीगंज थाना पुलिस को घटना की सूचना दी गई। इसके बाद त्रिवेणीगंज थाना के अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार पहुंचे। इस दौरान घटनास्थल पर बिखरे पड़े सामान का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच में जुट गई है। इधर, घटना के बाद गांव के लोगों में भी भय का माहौल व्याप्त है। सूचना के बाद पुलिस टीम के पहुंचने पर काफी संख्या में ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंचे। सभी घटना को लेकर हतप्रभ दिखे। गांव में तरह-तरह की चर्चा चल रही है। लोग दबी जुबान में एक दूसरे से घटना के महैनजर गांव में चौकसी बताने और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस घटना में संलिप्त सभी बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही चोरी की गई ज्वेलरी, नकदी और सारे सामान भी जल्द बरामद होने चाहिए। जांच के दौरान त्रिवेणीगंज थाना के अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। पीड़ित गृहस्वामी के आवेदन के आलोक में थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही दर्ज प्राथमिकी के आलोक में त्वरित कार्रवाई की प्रक्रिया की जाएगी।

बाइक चोरी के आरोप में युवक की पिटाई

पूर्णिया। के लाइन बाजार में भीड़ ने बाइक चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई कर दी। आक्रोशित भीड़ उसे अधमरा होने तक लात-धुसों से बीच सड़क पर पीटती रही। वहीं पास में खड़े किसी शख्स ने फोन कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह युवक को भीड़ के बीच से निकाला। इसके बाद उसकी जान बच सकी। वहीं भीड़ की पिटाई में घायल युवक की नाजुक हालत को देखते हुए पुलिस उसे GMCH पूर्णिया में एडमिट कराया है, जहां उसकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। घटना के हाट थाना क्षेत्र के लाइन बाजार चौक से लगे केनर बैंक के समीप की है। घायल युवक ने अपने उमर लगे बाइक चोरी की आरोपों को खुलियाद बताया है। युवक की पहचान जलालगढ़ निवासी सुरेंद्र सिंह के बेटे मिट्टू कुमार (22) के रूप में हुई है। घटना की जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लाइन बाजार चौक से लगे केनर बैंक के समीप एक टफरअपनी बाइक खड़े कर डॉक्टर के क्लीनिक में विजिट पर गया था।

उत्पाद विभाग ने शराब के डिलीवरी बॉय को किया गिरफ्तार



शेखपुरा। शेखपुरा में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने गुरुवार को विदेशी शराब के साथ एक डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है। जबकि गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर स्टॉक की तलाश में पहुंची उत्पाद टीम के ऊपर युवक के परिवार वालों ने हमला बोल दिया है। छापेमारी का नेतृत्व उत्पाद विभाग की एसआई निशाना कुमारी और एसएसआई अनिल कुमार सिंह ने की है। इस मामले में प्रभारी उत्पाद अधीक्षक सह उत्पाद निरीक्षक प्रकाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार डिलीवरी बॉय शेखपुरा नगर परिसर क्षेत्र के वार्ड संख्या-7 अंतर्गत बड़ी संगत मोहल्ला निवासी स्व कृष्ण चौधरी का बेटा पिंटू चौधरी बताया गया है। उन्होंने बताया कि वह अपने घर से एक थैला में विदेशी शराब की 6 बोतलों को रखकर खरीदार के घर होम डिलीवरी करने निकला था। तभी

पूर्व से घात लगाए उत्पाद विभाग की सादे ड्रेस में पुलिस टीम ने उसे घर दबोचा। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार युवक के पास से झारखंड में निर्मित रॉयल स्टेग ब्रांड की 6 बोतलें विदेशी बरामद किया गया। जिसे छापामार दस्ते ने जप्त कर लिया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार कारोबारी के विरुद्ध स्थानीय नगर थाना से आपराधिक इतिहास मांगा गया है। इसके विरुद्ध उत्पाद थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही इसे जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उत्पाद पुलिस को पहले ही गुप्त सूचना मिली थी कि युवक शहर के विभिन्न मोहल्लों में विदेशी शराब होम डिलीवरी करता है। पुलिस इसे रोग हाथ पकड़ने की ताक में काफी दिनों से थी। उन्होंने कहा कि युवक की गिरफ्तारी के बाद शराब के स्टॉक की तलाश में देवारा निकली।

शराब के नशे में महिला को लाठी-डंडे से पीटा

एजेंसी

जमुई। जमुई, बुधवार देर रात में सदर थाना क्षेत्र के भिच्यार मोहल्ले में आपसी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट की घटना में एक पक्ष से दो लोग घायल होगे। घायलों में रुबिया देवी पति राजेंद्र तुरी शामिल है। रुबिया देवी के सिर में चोट लगने के कारण स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा डायल 112 नंबर की पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों



के सहयोग से घायल महिला रुबिया देवी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर के द्वारा इलाज किया गया। मांभीर रूप से घायल महिला रुबिया देवी ने बताया कि रिस्ते में

मौसरे ससुरे के बेटे ने बुधवार रात शराब के नशे में मेरे बेटे के बारे में अपशब्द बोल रहा था। मेरा बेटा जाबर रह कर काम करता है। जिसका विरोध मेरे पति राजेंद्र तुरी के द्वारा किए जाने पर ने मौसरा

ससुरे के बेटे और बहू ने मिलकर मेरे साथ इट पत्थर और लाठी-डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया। कहां कि चुतरी तुरी, अजय तुरी, रूबी देवी, दुलारी कुमारी, सुरी देवी सभी ने मिलकर मारपीट किया है। डायल 112 नंबर की पुलिस को सूचना देने पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बहू, इस मामले को लेकर टाउन थाना अध्यक्ष अरुण कुमार का कहना है कि मारपीट की सूचना मिली है। मामले को लेकर आवेदन नहीं दिया गया है।

परीक्षा समाप्त होने पर छात्रों ने DJ पर किया डांस

एजेंसी

कटिहार। कटिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा बुधवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। वहीं बुधवार को विज्ञान और वाणिज्य संकाय के लिए पहली पाली में हिंदी की परीक्षा और दूसरी पाली में कला संकाय के लिए इतिहास और विज्ञान संकाय के लिए कृषि सब्जेक्ट की परीक्षा आयोजित हुई। वहीं परीक्षा समाप्त होने पर छात्रों ने भोजपुरी गीत की पर जमकर तुमके लगाए। छात्रों ने कहा कि परीक्षा बेहद अच्छा रहा, जिसकी खुशी में हमलोग सड़क पर डांस कर रहे हैं। हजारों की संख्या में छात्रों के जुटने पर शहर में



सड़कों पर जाम लग गया। बताया जा रहा है कि सभी द्वितीय पाली की परीक्षा समाप्त होते ही मिर्चाई बारी हरिशंकर नायक परीक्षा केंद्र से बाहर निकले थे। दरअसल जैसे ही परीक्षा समाप्त

हुई परीक्षा केंद्र के बाहर कटिहार गेज बाड़ी मुख्य मार्ग पर डीजे बज रहा था। फिर छात्र क्वेश्चन पेपर लेकर भोजपुरी गीत पर डांस करने लगे। बुधवार को दोनों पालियों में मिलाकर 20 हजार 229

परीक्षार्थियों में से 19 हजार 713 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। दोनों पालियों से 489 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पहली पाली में 6 हजार 595 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। इसमें से 6 हजार 386 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। वहीं 182 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 13 हजार 634 में से 13 हजार 327 परीक्षार्थी पहुंचे और 307 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं 8 फरवरी गुरुवार को पहली पाली में विज्ञान, कला, वाणिज्य और वोकेशनल के लिए अनिवार्य विषय और दूसरी पाली में कला संकाय के लिए मनोविज्ञान, वाणिज्य संकाय के लिए उधमिता की परीक्षा आयोजित होगी।

अजगैबीनाथ धाम में कांवरियों का उमड़ा जनसैलाब

भागलपुर। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में मौनी अमावस्या को लेकर गुरुवार को कांवरियों का जन सैलाब पहुंचने लगा। कांवरिया पार्वती मां के कुल के होने पर बाबा भोलेनाथ को तिलकोत्सव करने के लिए अजगैबीनाथ के उत्तरवाहनी गंगा में डुबकी लगा कर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हुए पैदल और वाहन से देवघर बैधनाथ का यात्रा करते हैं। बाबा भोलेनाथ को लड्डू, केला, नारंगी, फल प्रसाद, गंगा जल चढ़ाते हुए तिलकोत्सव बसंत पंचमी को करते हैं। दरअसल, कई वर्षों से मिथलांचल के कांवरिया अजगैबीनाथ धाम पहुंचकर उत्तरवाहनी गंगा में डुबकी लगाते



हुए अजगैबीनाथ मंदिर में स्थित बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हुए देवघर बैधनाथ धाम का पैदल और

मनाते हुए और आठ मार्च को महाशिवरात्रि के दिन धूमधाम से बाबा भोलेनाथ और पार्वती मां का विवाह उत्सव मनाते हैं। वहीं अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमनांद गिरी ने बताया कि हर वर्ष की भांती इस वर्ष भी मौनी अमावस्या को लेकर लाखों शिव भक्त अजगैबीनाथ धाम पहुंचे हैं, आज दिन साठ हजार शिव भक्तों ने अजगैबीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाए हैं और नगर परिसर के द्वाय गंगा घाट में बैरिस्ट्रींग, साफ-सफाई अभियान युद्ध स्तर से चलाया गया है, साथ ही थानाध्यक्ष पिंग रंजन के द्वाय गंगा घाट, अजगैबीनाथ मंदिर, कच्ची कंकरिया पथ तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किया गया है।

विशेष छापेमारी में 47 लोग गिरफ्तार

गोपालगंज। गोपालगंज के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम ने विशेष अभियान चलाकर कुल 47 लोगों को शराब पीने और बेचने के मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ उत्पाद विभाग ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उत्पाद विभाग की टीम ने नोडल रेड के तहत कुल 47 लोगों को जिले में बनाए गए बलथरी चेकपोस्ट समेत विभिन्न चेक पोस्टों के आलावा विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई में शराब पीने के



आरोप में पीने वाला 29 और शराब बेचने के आरोप में 18 कुल 47 आरोपियों की गिरफ्तारी अलग-अलग जगहों से किया गया है। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि नोडल रेड के तहत कुल 47 लोगों को गिरफ्तार कर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी खाली

नालंदा। नालंदा जिला के जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिलाधिकारी द्वारा विशेष बैठक के आयोजन हेतु 8 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई थी। गुरुवार को हरदेव भवन सभागार में पूर्व से निर्धारित समय पर जिला परिषद की विशेष बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 19 अन्य सदस्य उपस्थित हुये। सभी उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति पंजी में दर्ज की गई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव में लगाये गये आरोपों को इधकर सदस्यों को सुनाया गया। इसके उपरांत पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा इन आरोपों को लेकर आपस में चर्चा की गई। चर्चा



समाप्त होने के उपरांत मत विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई। इससे पूर्व मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद नालंदा द्वारा मत विभाजन की प्रक्रिया एवं बैलट पेपर के बारे में सभी सदस्यों को विस्तृत जानकारी दी गई। पहले अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मत विभाजन किया गया। उसके बाद उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मत विभाजन किया गया।

प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र में हुई चोरी का खुलासा

एजेंसी

पूर्णिया। 4 फरवरी की देर रात प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र धमदाहा में हुई 15 लाख के सामान की भीषण चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गायब हुए इन सामानों को सखुआ टोला गांव में छापेमारी कर बरामद किया। उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में लगे भवन निर्माण कंपनी का मुंशी ही इसका मास्टरमाइंड निकला। सामानों की हेराफेरी के निमत से विभाग और कंपनी को गुमराह कर मुंशी ने ही उपस्वास्थ्य केन्द्र से इन सामानों की चोरी करवाई। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में धमदाहा के किशनपुर बलुआ के सखुआ टोला निवासी फूलचंद मण्डल व घटना के मास्टर माइंड की पहचान बिहारीगंज



निवासी रितिक कुमार के रूप में हुई है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए धमदाहा थानाध्यक्ष कुमार अभिनव ने बताया कि 4 फरवरी की देर रात धमदाहा के अतिरिक्त प्राथमिक

उपस्वास्थ्य केन्द्र विशनपुर में लाखों रुपए के सामान की चोरी हुई थी। इसमें बेडशीट व गद्दा 3 पीस, लैब रूम टेबल 2 पीस, डेस्क 2, कंप्यूटर टेबल 1, मेडिकल ट्रॉली 1,



कुर्सी 22, व्हील चेयर 1, वास बेसिन 5, फ्लस 4, एग्जास्ट फैन 4, स्विच 95 पैनल 21, एलईडी बल्ब 14, सावर 2, स्टील नल 12, डीप फ्रीजर आरओ 1 की चोरी की

गई थी। धमदाहा थाने की पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए छापेमारी शुरू की। इसी क्रम में धमदाहा थानाक्षेत्र के किशनपुर बलुआ पंचायत के सखुआ टोला

स्थित फूलचंद मण्डल के घर से चोरी हुए सामानों की बरामदगी की। जिसके बाद फूलचंद मण्डल की निशानदेही पर भवन निर्माण विभाग के संवेदक के मुंशी बिहारीगंज निवासी रितिक कुमार को गिरफ्तार किया गया। धमदाहा पुलिस ने बताया कि भवन निर्माण कंपनी का मुंशी ही इस चोरी की घटना का मास्टरमाइंड है। मुंशी ने विभाग और कंपनी को गुमराह करने और सामानों की हेरा-फेरी करने की नीयत से चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फूलचंद मण्डल के सहयोग से ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से इन सामानों को रातों-रात फूलचंद मण्डल के घर भिजवाया। बाद में इस घटना को चोरी का रूप दिया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

सरकार की मंशा के अनुरूप शिक्षण कार्य करें शिक्षक देवेन्द्र खड़गवंशी

संवाददाता अमरोहा। जनपद अमरोहा में समग्र शिक्षा के अंतर्गत विकास क्षेत्र गैरक्षेत्री में करंट सभी प्रधानाध्यापकों, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्षों, ग्राम प्रधानों एवं स्थानीय निकाय के सदस्यों का वार्षिक स्तरीय एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन गंगवार स्थित अक्व फार्म हाउस में किया गया। बेसिक शिक्षा एवं कायाकल्प से संबंधित बिंदुओं पर जानकारीयां प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए भाजपा नेता एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य देवेन्द्र सिंह खड़गवंशी ने कहा कि वर्तमान सरकार बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए बेहद गंभीर है। उन्होंने शिक्षकों से सरकार की मंशा के अनुरूप शिक्षण कार्य करने का आह्वान किया। उपस्थित शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी का पालन पूर्ण ईमानदारी के साथ करते रहें। अच्छे



समाज के निर्माण में अध्यापकों का योगदान बहुमूल्य है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आज परिषदीय विद्यालयों से परदे हुए छात्र-छात्राई अधिकारी बन रहे हैं जो कि कबिले तारीफ है। उन्होंने हाल ही में नया गांव तरीली निवासी निधि (चयनित एसडीएम) को बधाई देते हुए परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के पठन-पाठन की व्यवस्था को सराहा। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में बोलते हुए ब्लाक प्रमुख गणेश्वरी राजेंद्र सिंह खड़गवंशी ने कहा कि का कप

के अंतर्गत बेसिक परिषदीय विद्यालयों को कायाकल्प हो रहा है। इनमें एक निपुण कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी अध्यापकों से छात्रों को जल्द से जल्द निपुण बनाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि नियमित रूप से निपुण असेसमेंट करते रहें। खण्ड शिक्षा अधिकारी गणेश्वरी आरती गुता ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए सभी अध्यापकों से अपनी झुट्टी को पूर्ण ईमानदारी से करने के लिए प्रेरित किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम आए छात्र छात्राओं एवं बेसिक शिक्षा को निपुण बनाने में उत्कृष्ट अध्यापकों को प्रमाण पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया।



बेसिक शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। इनमें एक निपुण कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी अध्यापकों से छात्रों को जल्द से जल्द निपुण बनाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि नियमित रूप से निपुण असेसमेंट करते रहें। खण्ड शिक्षा अधिकारी गणेश्वरी आरती गुता ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए सभी अध्यापकों से अपनी झुट्टी को पूर्ण ईमानदारी से करने के लिए प्रेरित किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम आए छात्र छात्राओं एवं बेसिक शिक्षा को निपुण बनाने में उत्कृष्ट अध्यापकों को प्रमाण पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया।

इसके अलावा 10 परिषदीय विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों को टेबलेट वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी विद्यालय रहरई एवं प्राथमिक विद्यालय मंगरोला की छात्राओं द्वारा स्वगत गीत एवं लोकगीत प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम को प्रथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष यशपाल सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष रामवीर सिंह, शाखा प्रबंधक विनीत कुमार, प्रमोद कुमार नागर एवं वीरपाल सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष यशपाल सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष रामवीर सिंह, मुख्य प्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय मधु सिंह, शाखा

प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक हसनपुर विनीत कुमार, महेश ठाकुर, प्रमोद नागर वीरपाल सिंह, राकेश कुमार शर्मा, पवन अग्रवाल, प्रमोद कुमार, प्रदीप भाटी, वैभव गुप्ता, हरिओम सिंह, सतपाल सिंह, लखमी सिंह, तुफान सिंह कटारिया, गौतम सिंह, जयवीर सिंह, नरदेव सिंह, अमित आर्य, भुवनेश वर्मा डॉक्टर विनोद कुमार, बिजेंद्र सिंह, सचिन कुमार, देवराज सिंह, नवीन कुमार, संजय कुमार, मनोहर यादव, इंद्रीस अली, सुफ खान, नाजिर अली, अजय कुमार, परवीन कुमार, करनपाल, सुरजित कुमार, लोनेश कुमार, देवेन्द्र शर्मा, रेशनलाल, अरुण कुमार, देवराज सिंह, प्रदीप कुमार, मनोज गुप्ता, देवराज सिंह, नेश कुमार, हिरेन्द्र वर्मा, गहलु कुमार, फैजान हसमत, संदीप कुमार, महतावुद्दीन, मोनिका, रूफिया अजीज, शालू तंवर, रीना गौड़, विजय लक्ष्मी, सविता सिंह आदि मौजूद रहे।

संक्षिप्त डायरी

ग्रामीण क्षेत्रों में संविधान को लेकर किया गया जनसंपर्क



संवाददाता विजयनगर। लोकसभा नगीना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार द्वारा किया गया जनसंपर्क। नगीना लोकसभा क्षेत्र के धामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मीमला, मलकपुर, लालवाला आदि गांव में पूर्व जज मनोज कुमार द्वारा संविधान जागरूकता विचार को लेकर जनसंपर्क किया गया। जनसंपर्क के दौरान पूर्व जज मनोज कुमार का ग्रामीणों द्वारा फूल मालाएं डालकर स्वागत किया गया। जनसंपर्क में पूर्व जज मनोज कुमार द्वारा संविधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी और जनता को एकजुट होकर संविधान को बचाने की अपील की। तथा आने वाले लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। इस दौरान सुरेंद्र कुमार, धर्मेन्द्र सिंह कटारिया, मोहित कुमार, दीपक कुमार, शिवम कुमार, अशोक कुमार, लव कुमार, रोहित कुमार, बिशन सिंह, केवल सिंह, करण कुमार, मुकेश कुमार, रोशन सिंह, नीरज कुमार, प्रदीप कुमार, शाहनवाज आलम, शाहिद अहमद, सलीम अहमद, वीर सिंह, रोहातस सिंह, वीर सिंह चौहान, दीपक कुमार, मोहित कुमार, आदि ग्रामीण उपस्थित रहे।

मेधावी बच्चे ही आगे चलकर करेंगे देश का नेतृत्व: आर पी एन सिंह



संवाददाता कसया। श्यामा देवी इंटर कालेज टेकुआटार कुशीनगर में बृहस्पतिवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री कुँवर आर पीएन सिंह रहे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि बच्चों देश के भविष्य है। इस विद्यालय में अनुशासित रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले देश के कर्णधार बच्चों ही आगे चलकर देश का नेतृत्व करेंगे। विशिष्ट अतिथि दयाशंकर सिंह रहे। कार्यक्रम में अंशिका मद्देशिया, खुशबू, मुस्कान, साधना, नेहा, अंजली, श्वेता, आदि ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की। अध्यक्षता संस्थापक शंभू राव व संचालन राजेश शर्मा ने किया। आभार ज्ञान विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्या गुड्डि राव ने किया। कार्यक्रम के दौरान विगत वर्ष में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्र करीना, श्रेया, ममता, तन्व, रागनी, नंदनी, फरहाना, नीतू, काजल, नीतीश आदि को मुख्य अतिथि द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान शाहनवाज अहमद, धुवनारायण पांडेय, प्रेमप्रकाश गोविंद राव, कौलेश, लक्ष्मी, पल्लवी, अंगीरा, अनिता आदि मौजूद रही।

भाजपा सदस्यता लेने के बाद फाजिलनगर पहुंचे चेयरमैन शत्रुमर्दन शाही का हुआ भव्य स्वागत



संवाददाता कसया, कुशीनगर। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद फाजिलनगर पहुंचने पर नगर पंचायत अध्यक्ष शत्रुमर्दन शाही का भाजपा कार्यकर्ताओं व नगरवासियों जोरदार स्वागत किया। नगर पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाही ने कहा कि नगर के सम्पूर्ण विकास के लिए ट्रिपल इंजन की संस्कार जरूरी है। मैं नगर पंचायत के प्रति और तेजी से विकास के लिए भाजपा के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। निश्चित ही अब विकास के गति को बल मिलने के साथ सबक साथ सबक विकास का नगर सार्थक होगा। इस दौरान भाजपा के मण्डल अध्यक्ष मुकुट तिवारी, रामकृष्ण मिरी, रम सिंह, सतिता मिश्रा, वृंदा सुभाष सिंह, विजयशंकर तिवारी, विजय मिश्र, राजेश दूबे, अरुण मिश्र, नंदकिशोर पांडेय, सतीश पांडेय, राधेश्याम मद्देशिया, भानू राव, पूर्व व्यापार मण्डल अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव, धीरज वर्मा, दिव्यजीत शाही, गुड्डू चौहान, कामलेश वर्मा, जेपी सिंह, रामसेवक सिंह, राहुल सिंह, विवेक प्रताप सिंह, शमशाद आलम, आनन्द सिंह, नसीम आलम आदि उपस्थित रहे।

कैम्पस सेलेक्शन में 32 छात्रों को मिली नौकरी



संवाददाता कुशीनगर। नगर स्थित गौतम बुद्ध आईटीआई कालेज के परिसर में अडानी ग्रुप मुंद्रा सोलर प्रॉवेट लिमिटेड गुजरात द्वारा आयोजित कैम्पस सेलेक्शन में 32 छात्रों को नौकरी मिली। गुरुवार को अडानी ग्रुप मुंद्रा सोलर प्रॉवेट लिमिटेड गुजरात के कंपनी अधिकारी वीर प्रताप सिंह व स्टाफ ने कुल पंजीकृत 48 छात्रों का साक्षात्कार लिया। जिनमें 32 छात्रों का सेलेक्शन किया गया। चयनित छात्रों

को प्रमाणपत्र वितरित करते हुए आईटीआई कालेज के प्रबन्धक बीके शुक्ला ने कहा कि अपने कौशल विकास, दक्षता से व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। अपने कर्मों व कुशल व्यवहार से व्यक्ति हमेशा तारकती करता है। इसलिए हंसमुख, मुदुभाषी व मिलनसार बनें। ये मेरी शुभ कामना है। इस दौरान प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार यादव स्टाफ शिवम पांडेय, नन्हें, रघुबीर, अंजली चौरसिया उपस्थित रहे।

ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा

वाराणसी। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ रोकने संबंधी याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी 2024 को तारीख तय की है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अंजुमन इतजामिया कमेटी ने कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें ज्ञानवापी परिसर में अरक सवें की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाते हुए आपत्ति जताई है। इस मामले में गुरुवार को अपर जनपद न्यायाधीश (एडीजे कोर्ट) ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया और अगली डेट तय की है। मुस्लिम पक्ष 15 दिन के लिए पूजा पाठ पर स्टे ऑर्डर की मांग कर रहा था, तर्क यह दिया गया कि मसाजिद कमेटी अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखने के लिए ऐसा आदेश चाहता है। वहीं कोर्ट में हिंदू पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा



कि जब हाईकोर्ट में 12 फरवरी को सुनवाई होनी है, तो निचली कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को सुना जाना औचित्यहीन है। मसाजिद कमेटी ने क्यों दायर की है याचिकापूजा-पाठ की अनुमति और विपक्षी वादियों के प्रवेश पर आपत्ति भी जिला कोर्ट में दाखिल की गई है। मसाजिद कमेटी ने जिला जज की अदालत के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने और समय बढ़ाने की मांग की थी।

जिला जज की अदालत में गुरुवार दोपहर बाद सुनवाई होनी थी लेकिन अब इसमें अगली डेट तय की गई है। ज्ञानवापी परिसर में व्यास तहखाने के अंदर मूर्ति स्थापना और पूजा पाठ को लेकर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर सुनवाई होनी थी। जिस पर मुस्लिम पक्ष ने स्थान प्रस्ताव का दावा किया। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में दाखिल आपत्ति में कहा कि डीएम ने 7 घंटे

में जो कार्रवाई की, उसके लिए कोर्ट ने 7 दिन का समय दिया गया था। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से कहा कि हम संशोधन आदेश पेश करेंगे लेकिन हम फैसले पर रोक चाहते हैं और वहां यथास्थिति बनी रहे, ऐसा आदेश चाहते हैं। जिसके लिए प्रभारी जिला जज ने दोनों पक्षों को गुरुवार दोपहर कोर्ट में तलब किया था। जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश ने 17 जनवरी को जिलाधिकारी को ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी का तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया था। साथ ही मुकदमे की सुनवाई की दौरान तहखाने को अपनी अभिरक्षा और नियंत्रण में लेकर उसे सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। तहखाने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपने की मांग पं. सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास की ओर से की गई थी।

मेधावी बच्चे ही आगे चलकर करेंगे देश का नेतृत्व: आर पी एन सिंह

संवाददाता कसया। श्यामा देवी इंटर कालेज टेकुआटार कुशीनगर में बृहस्पतिवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री कुँवर आर पीएन सिंह रहे। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि बच्चों देश के भविष्य है। इस विद्यालय में अनुशासित रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले देश के कर्णधार बच्चों ही आगे चलकर देश का नेतृत्व करेंगे। विशिष्ट अतिथि

दयाशंकर सिंह रहे। कार्यक्रम में अंशिका मद्देशिया, खुशबू, मुस्कान, साधना, नेहा, अंजली, श्वेता, आदि ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की। अध्यक्षता संस्थापक शंभू राव व संचालन राजेश शर्मा ने किया। आभार ज्ञान

ज्ञान देने की धमकी पर पुलिस ने कड़ाई शादी

झांसी। झांसी से एक अनेखी लव स्टोरी सामने आई है। यहाँ प्रेमिका की सगाई के बाद प्रेमी ने घरवालों को फोन करके कहा-उसके बिना मर जाऊंगा। इसके बाद लड़का घर से भाग गया। पुलिस ने किसी तरह युवक को थाने बुलाया। थाने में लड़की को बुलाकर तो पता चला कि वह भी लड़के से शादी करना चाहती है। पुलिस ने दोनों परिवारों को बुलाया। काउंसिलिंग करके दोनों परिवारों को शादी के लिए राजी किया। फिर 4 घंटे में दोनों की शादी करा दी गई। अंबावाय में रहने वाले दीपक अहिरवार (23) पिता के साथ

काजल, नीतीश आदि को मुख्य अतिथि द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान शाहनवाज अहमद, धुवनारायण पांडेय, प्रेमप्रकाश गोविंद राव, कौलेश, लक्ष्मी, पल्लवी, अंगीरा, अनिता आदि मौजूद रही।

खेती करता है। एक दिन वह अपनी बुआ की बेटी को छोड़ने के लिए कॉलेज गया था। वहाँ उसकी बाजना गांव में रहने वाली शिवानी से मुलाकात हुई। फिर दोनों की दोस्ती हो गई। कुछ दिन बाद ही दोस्ती प्यार में बदल गई।

का संकल्प लेने वाले आयुष, भोला, अभिषेक, राज, दुन्दुन, सुधाकर, पवन, कृष्णा, बसंत, अंकित, किशन, अंशु, अनुष्का, अरीशा, खुशी, प्रीति, कुमुकुम, पावल, निधि, सोनानी, ऑंचल, निर्जला, खुशबू, शिवांगी, संजना, सोनानी, सिमरन, जुही, अंशिका, संजना, ऑंचल, शिवांगी, अराधना, अभिषेक, कृष्णा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाध्यापक अमित राव के लाडले युग के जन्मदिन के अवसर पर पौषरोपण किया।

परिषदीय विद्यालयों में बालिकाओं को सिखाये जा रहे आत्मरक्षा के गुण



संवाददाता कुशीनगर। बालिकाओं में आत्मरक्षा का भाव भरने के उद्देश्य से कुशीनगर नगरपालिका परिषद के पूर्व माध्यमिक विद्यालय विशांवरपुर में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत बालिकाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। महानिदेशक बेसिक शिक्षा के आदेश के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर राम जियावन मौर्य के द्वारा जारी आदेश के क्रम में रानी लक्ष्मीबाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में जनपद के सभी विकास खण्डों के चयनित उच्च प्राथमिक विद्यालय व कम्पोजिट विद्यालयों की बालिकाओं को आत्म रक्षा के गुण सिखाने का प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को विद्यालय में प्रशिक्षण दे रही अनुदेशक विद्यावती ने बताया कि

यह प्रशिक्षण 24 दिवसीय है। दो फरवरी से उनके द्वारा कसया विकासखंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय विशांवरपुर, कम्पोजिट विद्यालय कुशीनगर, कम्पोजिट विद्यालय कसया व कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कसया में प्रत्येक दिन एक-एक घण्टे चल रहा है। इस दौरान बालिकाओं को पीटी, योग, जूडो, कराटे आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्यावती ने यह भी बताया कि विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों में अनुदेशकों व पीटीआई के द्वारा यह प्रशिक्षण दी जा रही है। प्रशिक्षण के दौरान प्रधानाध्यापिका पुष्पा सिंह, गीता शर्मा, खुशी कुशवाहा, अंजली, सोली, सुप्रिया, पूजा, खुशी मौर्य, रागिनी, सबीना, आराधना, सुन्दरी, सोम, काजल, तनु, आरती, निशु, सोनी, गरिमा, ज्योति आदि मौजूद रही।

35 विद्यार्थियों ने लिया परिजनों को साक्षर करने का संकल्प

संवाददाता कुशीनगर। नयी दिशा पर्यावरण सेवा संस्थान ने देश को साक्षर बनाने में अपना योगदान देते हुए हाटा विकास खण्ड के ग्राम सभा भठही बाबू स्थित जूनियर हाईस्कूल से हर हाथ कलम अभियान की शुरुआत की। संस्था सचिव डॉ. हरिओम मिश्र की प्रेरणा से विद्यालय के 35 विद्यार्थियों ने अपने परिजनों को साक्षर करने का संकल्प लिया। इन सभी को संस्थान की तरफ से स्लेट, चॉक और किताब भेंट किया गया। डॉ. हरिओम ने कहा कि हर घर में पढ़े



लिखे लोग हैं। हम केवल अपने-अपने घर को साक्षर कर लें तो देश स्वतः साक्षर हो जाएगा। अध्यक्षता करते हुए पूर्व शाखा प्रबंधक नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को शुभ

कार्य हेतु बधाई दिया। प्रधानाध्यापक प्रवीण राव ने स्वागत व आभार प्रकट किया। इस अवसर पर शिक्षक अमित सिंह, देवानंद गौड़ सहित परिजनों को साक्षर करने

का संकल्प लेने वाले आयुष, भोला, अभिषेक, राज, दुन्दुन, सुधाकर, पवन, कृष्णा, बसंत, अंकित, किशन, अंशु, अनुष्का, अरीशा, खुशी, प्रीति, कुमुकुम, पावल, निधि, सोनानी, ऑंचल, निर्जला, खुशबू, शिवांगी, संजना, सोनानी, सिमरन, जुही, अंशिका, संजना, ऑंचल, शिवांगी, अराधना, अभिषेक, कृष्णा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाध्यापक अमित राव के लाडले युग के जन्मदिन के अवसर पर पौषरोपण किया।

तीन ग्राम पंचायतों को कर्ड सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है



संवाददाता अमरोहा। जनपद अमरोहा में 3 ग्राम पंचायत को आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। इस दौरान जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्रा और जिला पंचायत राज अधिकारी पारुल सिसोदिया ने तीनों ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव



पंकज शर्मा, एडीओ पंचायत मदनपाल सिंह, डिडौली के ग्राम प्रधान देकर को आईएसओ सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। आपकों बता दें विकासखंड अमरोहा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जमुना खास, ग्राम पंचायत नन्हेडा अलीयापुर के वही विकासखंड

जोया क्षेत्र की ग्राम पंचायत डिडौली के सचिवालय की क्रियाशीलता में अभिनव प्रयास किए गए हैं। जिसमें पंचायत सचिवालय पर कंस्ट्रक्टर, प्रिंटर, सीसी टीवी आदि की उपलब्धता, ग्राम सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं वार्ड सदस्यों का दीवार लेखन, शिकायत

एवं सुझाव बॉक्स की उपलब्धता, ग्राम सचिवालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का दीवार लेखन कूड़ेदान की व्यवस्था, महिला एवं पुरुष शौचालय की पुष्टक पुष्टक व्यवस्था। साकेतिक बोर्ड ग्राम सचिवालय पर आवश्यक अभिलेख जैसे ग्राम पंचायत

शिकायत रजिस्टर ग्राम सभा एवं समितियों की बैठकों की कार्यवाही रजिस्टर जन्म मृत्यु रजिस्टर परिवार रजिस्टर उपस्थिति रजिस्टर आदि उपलब्ध हैं। जिसको लेकर आज मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्रा और जिला पंचायत राज अधिकारी पारुल सिसोदिया ने

पंचायत सचिव पंकज शर्मा, एडीओ पंचायत मदनपाल सिंह और एक ग्राम प्रधान को आईएसओ सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। इसी के साथ सभी से अपनी ग्राम पंचायत में बेहतर से बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए।

आरक्षण विमर्श

सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण पर फिर एक बार बहस छिड़ गई है, जिस पर सभी का ध्यान जाना स्वाभाविक है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ ने कहा कि भारतीय संविधान यह नहीं कहता कि हाशिये पर रहने वाले समूहों के लोग अक्षम हैं, जबकि अन्य समूहों के लोग सक्षम। पीठ ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के लिए आरक्षण सुसंगत है। वाकई, उन्हें आरक्षण की बड़ी जरूरत है और इसे आने वाले अनेक दशकों तक बनाए रखने में ही समाज का व्यापक हित है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने जिस दिशा में इशारा किया है, वह भी महत्वपूर्ण है और उस पर कदम उठाना भले आसान न हो, पर विचार का क्रम अवश्य जारी रहना चाहिए। वैसे यह सवाल नया नहीं है कि क्या जिन लोगों को आरक्षण का भरपूर लाभ मिल चुका है, वे आरक्षण का लाभ छोड़ने के लिए तैयार होंगे? हालांकि, ऐसी किसी भी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ध्यान रखना होगा कि आरक्षण संबंधी कोई भी बिंदु अति संवेदनशील है और उस पर सहजता से कोई भी फैसला मुमकिन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीशों ने जो टिप्पणियां की हैं, उन पर विशेष रूप से गौर करने की जरूरत है। एक न्यायमूर्ति ने पंजाब के महाधिवक्ता से पूछा कि क्या राज्य सरकार एससी/एसटी वर्ग के भीतर कुछ उन उपजातियों को आरक्षण के लाभ के दायरे से बाहर रखने के पक्ष में है, जिन्होंने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है और बराबरी पर आ गई है? क्या ऐसे लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर आकर सामान्य श्रेणी के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष नहीं करना चाहिए? उनकी जगह, जो लोग पिछड़ों में भी पिछड़े हैं, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। एक अन्य न्यायमूर्ति ने भी संकेत किया कि एक विशेष पिछड़े वर्ग के भीतर, जब कुछ जातियां एक निश्चित स्थिति तक पहुंच जाती हैं और अगड़ी जातियों के बराबर हो जाती हैं, तो उन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर निकल जाना चाहिए। आप इन टिप्पणियों को सलाह कहिए या विचार, इन पर अमल का काम तो संसद या सरकार को ही करना है। अदालतों की अपनी सीमा है, उन्हें कोई भी फैसला कानून के दायरे में ही देना है। भारत के प्रधान न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने एक विषय तो छोड़ा है, मगर माकूल फैसला तो सरकार अपने सिवासी लाभ-हानि पर विचार करके ही लेंगी। बेवक, किसी से आरक्षण की सुविधा वापस लेने का कोई भी प्रबंध बड़े पैमाने पर विरोध की स्थिति पैदा कर सकता है। आरक्षण पाने वालों की रवेच्छा से ही फैसला हो, तो ज्यादा सही है। इसके कुछ पहलू हैं, जिन पर सरकारों को विचार करना होगा। पहली बात, आरक्षण का लाभ हुआ है। दूसरी बात, यह कोई भी नहीं मानेगा कि उसे आरक्षण का पचापन लाभ हो चुका है। तीसरी बात, यह हर कोई मानेगा कि आरक्षण का लाभ सबको नहीं मिला है, मतलब, आरक्षण से वंचितों की भी अभी ठीक-ठाक संख्या है। अब चौथी बात, दरअसल सवाल भी है कि विगत दशकों में तैयार हुए नए क्रीमी लेयर को आरक्षण छोड़ने के लिए कैसे तैयार किया जाए?

चंडीगढ़ में उपहास

चंडीगढ़ के मेयर का जिस ढंग से चुनाव हुआ, उस पर सुप्रीम कोर्ट की चुभती टिप्पणी से यह शक पक्का हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार मनोज सोनकर की जीत हेराफेरी से हासिल की गयी। चुनाव प्रक्रिया का वीडियो फुटेज देखने के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इसे स्तब्धकारी पाया क्योंकि खुद पीठासीन अधिकारी बैलेट पेपरों को विरूपित (खराब) करते नजर आये। मुख्य न्यायाधीश ने इसे हलोकतंत्र का मजाकह करार दिया। 30 जनवरी को चुनाव भाजपा के पक्ष में घोषित किये जाते ही बहुत से लोगों ने इसे प्रसन्न बनाया था, क्योंकि निर्वाचित पार्षदों द्वारा डाले गये आठ वोट अवैध करार दिये गये थे। 30 जनवरी को चुनाव भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ। पहले यह चुनाव 18 जनवरी को होना था, लेकिन अंतिम क्षणों में इसे 6 फरवरी के लिए टाल दिया गया, क्योंकि एक नामित पार्षद और भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी अनिल मसीह कथित तौर पर बीमार पड़ गये। हालांकि, अदालत के हस्तक्षेप की बदौलत 30 जनवरी को तारीख तय हुई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) का आरोप है कि चुनाव केवल इसलिए टाला गया था क्योंकि दोनों पार्टियां, जो मिलकर लड़ रही थीं और जीतने वाली थीं। निगम में आप के 13 और कांग्रेस के सात सदस्य हैं, लेकिन आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार को केवल 12 वोट मिले और आठ वोट अवैध घोषित कर दिये गये। सोनकर 16 वोट के साथ विजयी घोषित किये गये। मेयर का चुनाव 35 निर्वाचित पार्षदों और चंडीगढ़ के सांसद द्वारा किया जाता है। ऐसे अपेक्षाकृत छोटे निर्वाचित निकाय के लिए अपना मेयर चुनने का सरल तरीका यह है कि संबंधित उम्मीदवारों के पक्ष में सदस्य या तो हाथ उठाये या खड़े हो जाएं। लेकिन उन्हें अपनी पसंद मत पार्षदों के जरिये दर्ज करनी पड़ी, जो बताता है कि संभावित क्रॉस-वोटिंग का संदेह था। इस प्रक्रिया को संदिग्ध बनाने वाली चीज यह थी कि चुनाव के पीठासीन अधिकारी मसीह पर उम्मीदवारों को अवैध मतपत्र नहीं दिखाने का आरोप लगाया गया। नवीजतन, कोई ठीक-ठीक नहीं जानता कि ये वोट, जिन्हें शायद आप उम्मीदवार को गया होना चाहिए था, अवैध क्यों करार दिये गये। शीर्ष अदालत ने मतनों और रिक्तों को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार-जनरल को सुपुर्द करने और निगम की प्रस्तावित बैठक अगले आदेश तक स्थगित रखने का आदेश देकर बिल्कुल सही कदम उठाया है।

Social Media Corner

सब के हक में...

शील प्रभुपाद जी के विचार और संदेश से आज भी भारत के जनमानस को मार्गदर्शन मिल रहा है। उनकी 150वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होना मेरा परम सौभाग्य है।

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'एक्स' पर पोस्ट)



खान एवं भूतत्व विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवंटित खनिज ब्लॉकों में जल्द खनन कार्य प्रारंभ कराने एवं फॉरसेट वलीयरेंस का कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। विभाग में जियोलॉजिस्ट के स्वीकृत पदों हेतु वर्तमान में सिव्दा पर नियुक्ति करने तथा नियमित नियुक्ति हेतु जेपीएससी को अध्याचना भेजने का निर्देश दिया गया है।

(सीएम चंपाई सोरेन का 'एक्स' पर पोस्ट)



ईडी ने जब हेमंत को जमीन घोटाळा मामले में पूछाछ के लिए समन दिया था, तभी उन्होंने जमीन घोटाळा से पीछे छुड़ाने का इशारा रखा। जिस दिन ईडी की टीम दिल्ली में हेमंत सोरेन को ढूंढ रही थी, उसी दिन रातोंरात जमीन मूल मालिक के नाम पर रिस्टोर्ट कर दी गई। रांची से लेकर संचाल परगना तक अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले हेमंत की सच्चाई अब जनता के सामने आ चुकी है।

(पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)



प्रधानमंत्री मोदी के आत्मविश्वास से विपक्ष में बैचैनी

ANALYSIS



आशीष वशिष्ठ

26 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर कहा था कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और भाषणों में झलकता आत्मविश्वास विपक्ष की बैचैनी का बड़ा कारण है। बीते साल प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर ऐलान किया था कि अगले साल वे फिर लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे और अपनी उपलब्धियों का ब्योरा पेश करेंगे। लेकिन यह अहंकार नहीं है। यह बिल्कुल वैसी ही बात है, जैसी बात विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। वास्तव में यह अहंकार का नहीं, बल्कि दोनों तरफ आत्मविश्वास का मामला है। एक तरफ विपक्ष इस आत्मविश्वास से भरा है कि अगले लोकसभा चुनाव में उसकी जीत होगी तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी इस भरोसे में हैं कि वे तीसरी और ऐतिहासिक जीत हासिल कर पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण में कहा कि हमारा तीसरा कार्यकाल 1,000 सालों की नींव रखने का काम करेगा और उसमें बहुत बड़े फैसले होंगे। इससे पहले दो फरवरी को इंडिया मॉबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल की योजनाओं के बारे में बताया था। उनके तीसरे कार्यकाल की बात करने पर लोग लगातार तालियां बजाते रहें। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुकुराते हुए कहा कि समझदार को इशारा ही काफी होता है। 26 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में नए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर कहा था कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और भाषणों में झलकता आत्मविश्वास विपक्ष की बैचैनी का बड़ा कारण है। बीते साल प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर ऐलान किया था कि अगले साल वे फिर लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे और अपनी उपलब्धियों का ब्योरा पेश करेंगे। लेकिन यह अहंकार नहीं है। यह बिल्कुल वैसी ही बात है, जैसी बात विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। वास्तव में यह अहंकार का नहीं, बल्कि दोनों तरफ आत्मविश्वास का मामला है। एक तरफ विपक्ष इस आत्मविश्वास से भरा है कि अगले लोकसभा चुनाव में उसकी जीत होगी तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी इस भरोसे में हैं कि वे तीसरी और ऐतिहासिक जीत हासिल कर पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। केवल प्रधानमंत्री



मोदी के भाषणों में ही नहीं, बल्कि उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आखिरी वर्ष में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश अंतरिम बजट में भी सरकार का आत्मविश्वास झलकता है। उसमें देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प का परिचय भी मिलता है। यह एक ऐसा अंतरिम बजट है, जिसमें सरकार ने चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को रखाने के लिए कोई लोकलुभावान घोषणा नहीं की। ध्यान रहे 2019 के अंतरिम बजट में कई लोकलुभावान घोषणाएं की गई थीं। इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। इसका मतलब है कि सरकार मानकर चल रही है कि जनता को उस पर भरोसा है कि वह देशहित में सही दिशा में काम कर रही है। विकास की राजनीति का यह एक नया उदाहरण है। जब सामने लगातार तीसरी पारी की लड़ाई का मैदान सज रहा हो और यह अपेक्षा हो कि लोकलुभावान घोषणाओं का तड़का लगेगा, तब नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से सामाजिक न्याय व समानता के अवसर पैदा करते हुए भविष्य के विकसित भारत का संकल्प दोहराना यह स्पष्ट करता है कि केंद्र में वापसी का विश्वास लबाबल है। प्रधानमंत्री मोदी लोकलुभावान घोषणाओं के जरिए नहीं बल्कि अपने दस साल के ट्रैक रिकॉर्ड, जो कहा सो पूरा किया के नारे के

साथ ही जनता से समर्थन चाहते हैं। मोदी-2 की सरकार ने आते ही जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विदाई कर दी। राम मंदिर का रास्ता साफ किया और सीए, एनआरसी जैसे कानून लेकर आएं। मोदी-2 कार्यकाल की विदाई के चार महीने पहले अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। पिछले दिनों आई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी की मार से बाहर निकले हैं। ग्रामीण स्तर पर वह सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं जो पहले छोटे शहरों तक में उपलब्ध नहीं थीं। आयुष्मान योजना के परिणाम भी बहुत अच्छे हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात का परिदृश्य बदल रहा है। मैनुफैक्चरिंग के कारण रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। लोगों की औसत आय में 50 फीसद की बढ़ोतरी हुई है और सामान्य रूप से यह विमर्श बना है कि देश बदल रहा है, आने वाले समय में दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक बनेंगे। इसमें कोई दोष नहीं है कि देश आत्मविश्वास से भर रहा है और गौरव से भर रहा है। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर सकारात्मकता, आशा, भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपार लोकप्रियता और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बने माहौल को देखते हुए केंद्र में लगातार तीसरी बार

भाजपा की सरकार बनना लगभग तय है। ब्रिटेन के प्रमुख अखबार द गार्डियन में यह संभावना जताने के साथ ही कहा गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जीत ने पार्टी की ताकत को और बढ़ाया ही है। अखबार में हना एलिस पीटरसन के कॉलम में कहा गया है कि तीन राज्यों की जीत लोकसभा में भाजपा की संभावनाओं को और मजबूत करने वाली है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जीत इस विधानसभा चुनाव की जीत को 2024 में जीत की गारंटी बता चुके हैं। लेख में कहा गया है कि विपक्ष दलों की तरफ से कुछ ही माह पहले बनाया गया गठबंधन भले ही सामूहिक रूप से भाजपा के खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता जता रहा हो लेकिन वह अभी भी एकजुट नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मविश्वास के पीछे का कारण केवल खोखली राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। इसके ठोस कारण हैं। पिछले दस वर्षों में जिस तरह से अलग-अलग क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर हुआ है, उसने यह शक्ति प्रधानमंत्री मोदी को दी है। न सिर्फ घरेलू मोर्चे पर भारत की उत्पादकता बढ़ी है बल्कि उसने कई क्षेत्रों में निर्यात भी शुरू किया है। अब से कुछ दशक पहले भारत हर छोटी-बड़ी चीज के लिए विपक्ष के उन देशों का भी मुंह ताकत रहा, जो किसी न किसी तरीके से अपना हित साधने के लिए तमाम अंतरराष्ट्रीय उठापटक के लिए जिम्मेदार होते थे। मोदी सरकार की नीतियों ने ऐसे देशों की शक्ति और वर्चस्व वास्तव में कम की है और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर विश्व पटल पर खड़ा किया है। आज विश्व के तमाम बड़े, शक्तिशाली और उन्नत देश भी भारत की

लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।

स्त्री और पुरुष; समानता के हक में है यूसीसी

उत्तराखंड में चल रहे विधानसभा सत्र के बीच अपने घर से निकलते समय संविधान की मूल प्रति को लेकर सदन पहुंचने के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ओर यह कहकर देश में नई बहस शुरू कर दी है कि "देश के संविधान निमाताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 को सार्थकता प्रदान करने की दिशा में आज का दिन देवभूमि उत्तराखंड के लिए विशेष है। देश का संविधान हमें समानता और समरसता के लिए प्रेरित करता है और समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की प्रतिबद्धता इस प्रेरणा को साकार करने के लिए एक सेतु का कार्य करेगी।" इसके साथ सदन में पहुंचकर उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को सदन के पटल पर रख यह बात दिया है कि प्रत्येक नागरिक की समानता को लेकर जो शुरूआत उत्तराखंड से हुई है, वह अब अनेक राज्यों में होते हुए केंद्र तक

जाएगी। देहरादून स्थित जामा मस्जिद शहर काजी मोहम्मद अहमद कारामी, मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुंरेशी, इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस, नुमाइदा ग्रुप याकूब सिद्दीकी, ललापत हुसैन और राज्य बेरा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, बोर्ड के महासचिव मोहम्मद फजलुर्रहीम मुजद्दीदी, ऑल इंडिया मजलिस ए-इत्तेहादुल मुस्लिमान प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत देश भर में मुस्लिम रहनुमाई का दम भरने वाले आज कई नेता हैं जोकि यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) का खुलकर विरोध कर रहे हैं। वास्तव में इन सभी की छोटी मानसिकता से साफ समझ आ रहा है कि वह भारत के तमाम मुसलमानों को गुमराह करने के कार्य रहे हैं। कहना होगा कि आज कहीं न कहीं ये सभी और इन जैसे भारत में मुसलमानों को इस्लाम के नाम पर मजहब को ऊपर रख देश को तोड़ने का ही

कार्य कर रहे हैं। जब ये लोग कहते हैं कि मुसलमान का मतलब अपने आपको अल्लाह के हवाले करना है, इसलिए हमें पूरी तरह शरीअत पर अमल करना है। तब ये सभी यह भी मंशा जाहिर कर देते हैं कि उन्हें देश के कानून से कोई लेनादेना नहीं है। पर्सनल लॉ बोर्ड तो सीधे धमकी देने तक पर उतर आया है, कह रहा है "मुल्क में अगर भाईचारा खत्म हो गया तो मुल्क का इतेहाद पार हो जाएगा। अगर नफरत के जहर को नहीं रोका गया तो ये आम ज्वालामुखी बन जाएगी और मुल्क की तहजीब, उसकी नेकनामी, इसकी तरक्की और इसकी नैतिकता सब को जलाकर रख देगी।" अब इनसे कोई पूछे, कौन फैला रहा है नफरत ? देश के कई राज्यों में आज "सर तन से जुदा" के नारे क्यों लग रहे हैं? हम सबको याद है कि 1948 में जब हिंदू कोड बिल संविधान सभा में पहली बार पेश किया गया, तब कुछ लोगों ने इसका जमकर विरोध किया, किंतु डॉ. भीमराव आम्बेडकर अपने

उद्देश्य से डिगे नहीं। वे भारत की स्त्रियों को हर स्थिति में समान अधिकार दिलाने के लिए संकल्पित थे। तत्कालीन कानून मंत्री आम्बेडकर ने 5 फरवरी, 1951 को हिंदू कोड बिल को संसद में दोबारा प्रस्तुत किया। इसके बाद 17 सितंबर, 1951 को चर्चा के लिए इस बिल को फिर संसद के पटल पर रखा गया। संसद में विरोध के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री ने हिंदू कोड बिल को चार हिस्सों में बांट दिया, जोकि अबेडकर को सही नहीं लगा और उन्होंने आहत होकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा तक दे दिया। डॉ. आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पारित करवाने को लेकर साफ कहा कि "मुझे भारतीय संविधान के निर्माण से अधिक दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पास करने में है।" और आखिर 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, जिसके अंतर्गत तलाक को कानूनी दर्जा, अलग-अलग जातियों के स्त्री-पुरुष को एक-दूसरे से विवाह का

अधिकार और एक बार में एक से ज्यादा शादी को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। फिर 1956 में ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम और हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम देश में संवैधानिक नियमन से लागू हुए। कह सकते हैं कि ये सभी कानून महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए लाए गये थे। इसके तहत पहली बार महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और लड़कियों को गोद लेने पर जोर दिया गया। उस समय भी संसद का इस बात पर जोर था कि यह कानून सिर्फ हिन्दुओं के लिए नहीं बनाने पर रहनेवाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान रूप से लागू हों। इस संदर्भ में इतिहास और संसद की बहसें देखी जा सकती हैं कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार खासकर जवाहरलाल नेहरू इसके लिए तैयार नहीं हुए और यह कानून हिन्दुओं तक सीमित होकर रह गया। फिर जो भी आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध

कर रहे हैं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। राज्य के नीति-निर्देशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 'राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।' इस दिशा में उत्तराखंड सरकार ने जो पहल सदन में बिल पेश कर की है, उसके कानून बनते ही यहां की विशेषकर आधी मुस्लिम आबादी के साथ न्याय हो सकेगा। बहुविवाह पर रोक लगेगी। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा, बच्चों को गोद लेने का भी अधिकार पाना संभव होगा। सभी धर्मों में लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। वर्तमान में मुस्लिम समाज शरिया पर आधारित पर्सनल लॉ के तहत संचालित है। इसमें मुस्लिम पुरुषों को चार विवाह की इजाजत है। इसके लागू होते ही एक विवाह ही मान्य होगा।

भाजपा के मिशन 2024 से ही टीम भारत का निर्माण

भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को एक अवसर मानते हुए अगले 25 वर्ष की नई राजनीतिक अवधारणा पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इस बार के चुनाव में युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर टिकट देकर आगामी 25 वर्षों के लिए अत्यंत ऊजावर्ान और क्रियाशील टीम भारत का आधार तैयार करने की रणनीति पर कार्य शुरू हो चुका है। यह सब विजन मोदी के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक भी है। इसके संकेत स्वयं प्रधानमंत्री के संसद के बजट सत्र में दिए गए विस्तृत संबोधन में भी दिखे हैं। इसको समझने के लिए प्रधानमंत्री के अमृतकाल की परिधि को भी समझना होगा। वर्ष 2047 तक के कालखंड के अमृतकाल मानते हुए भारत को विश्वगुरु बनाने का लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। तब भारत अपनी स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा। उस समय तक राष्ट्र को सक्षम और अत्यंत



ऊजावर्ान राजनीतिक टीम की जरूरत होगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से संकेत दे दिया है कि नई लोकसभा में अब अत्यधिक युवा चेहरों की जरूरत है। इसमें युवा नारीशक्ति की भी बहुत जरूरत होगी। यद्यपि महिला आरक्षण के रूप में नारी शक्ति वंदन कानून पास हो चुका है लेकिन उसको आधिकारिक रूप से लागू होने में अभी कई तकनीकी कार्य शेष हैं। ऐसे में अपने टिकट बंटवारे में भाजपा नारीशक्ति वंदन के संकेत स्पष्ट मानकर महिला प्रतिनिधित्व भी बढ़ा सकती है। यह कदम भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले

दलों के लिए सांसत जैसा होगा क्योंकि वे हल्ला तो बहुत करते हैं लेकिन महिलाओं को वैसा प्रतिनिधित्व देते नहीं हैं। इससे भाजपा देश की महिलाओं को स्पष्ट संदेश देकर आधी आबादी को स्वयं से जोड़ सकती है। इस बार का चुनाव वैसे भी बहुत अलग होने जा रहा है। इसका संकेत प्रधानमंत्री का श्रीअयोध्या जी में श्रीराम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय का वह उद्घोषण है जिसमें वह बार-बार कालचक्र के परिवर्तन और अगले एक हजार वर्ष की भारत की सनातन यात्रा की नींव की चर्चा करते हैं। यह पारंपरिक राजनीति के गणित के

फामूलें सिद्ध करने वाले कथित राजनीतिक भविष्यवक्ताओं की समझ से परे है। इसका संकेत स्वयं प्रधानमंत्री ने संसद में कर दिया जब उन्होंने कहा कि उनका तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े और बहुत कड़े फैसलों का होने वाला है। संकेत स्पष्ट है। अब राजनीति बदल रही है। राजनीति में मटाधीशी समाप्त होगी और नए क्रियाशील चेहरे जगह पाएंगे। ऐसा भाजपा के टिकट बंटवारे में भी दिख सकता है। पारंपरिक राजनीति की परिभाषा में बहुत दिग्गज माने जाने वाले चेहरे अगर टिकट की सूची में स्थान नहीं पा सके तो चौंकने की जरूरत नहीं है। टीम भारत के निर्माण में नए, सांठनिक समर्पण वाले ऊजावर्ान चेहरे जरूरी हैं। वैसे भी यह चुनाव केवल एक ही चेहरे का है। हर टिकट पर नरेंद्र मोदी की छाप होगी है। चुनाव चिह्न पर वोट मिलने हैं। ऐसे में किसी दिग्गज को भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि कोई विजय उसकी है।

मिंट स्ट्रीट की सोच

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की ताजा द्विमासिक बैठक, जिसके नतीजों की जानकारी गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिशक्ति दास द्वारा दी जायेगी, में ब्याज दरों के मामले में एक बार फिर यथास्थिति बने रहने की व्यापक उम्मीद है। बीते दिसंबर की शुरूआत में हुई एमपीसी ने पिछली समीक्षा के दौरान, समिति के छह में से पांच सदस्यों ने ह्यआवास वापसीछ के रुख को जारी रखने के लिए मतदान किया था और समिति ने इस वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 6.5 फीसदी से बढ़ाकर सात फीसदी कर दिया था। समिति के रुख के ह्यतटस्थह होने की उम्मीदें कम हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 2023-24 में 7.3 फीसदी की वृद्धि के अनुमान के आलोक में विकास के अनुमानों पर दोबारा गौर किया जाता है या नहीं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने पिछले सप्ताह लगातार चौथी समीक्षा के लिए ब्याज दरों पर रोक लगा दी और अध्यक्ष जेरोम पावेल इस वर्ष ब्याज दरों में बहुप्रतीक्षित कटौती को लेकर असमंजस में थे। वह मुद्रास्फीति पर लगातार लगातार लगाने को तथ्य को स्थापित करने के लिए और ज्यादा आंकड़ों की तलाश में थे। भारत के नीति निर्माता भले ही यूएस फेड से सीधे संकेत न लें, लेकिन चिंताएं वैसी ही हैं जैसी गवर्नर दास ने दिसंबर में व्यक्त की थीं। मुद्रास्फीति को 4 फीसदी के स्तर पर बनाए रखने का लक्ष्य अभी तक पकड़ से बाहर बना हुआ है - दिसंबर में मुद्रास्फीति की दर चार महीने के उच्चतम स्तर 5.7 फीसदी पर पहुंच गई थी। आरबीआई को इस तिमाही में मुद्रास्फीति औसतन 5.2 फीसदी रहने की उम्मीद है और उसे सिर्फ जुलाई-सितंबर वाले चरण में इसके 4 फीसदी तक कम होने की उम्मीद है, ताकि मानसून सामान्य होने पर ब्याज दरों में कटौती करने पर विचार किया जा सके।

गौतम अडानी का शानदार शतक, 100 अरब डॉलर के एलीट क्लब में फिर शामिल

मुंबई ।

अदाणी ग्रुप के मालिक गौतम अदाणी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के एक साल बाद 100 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति वाले लोगों के एलीट क्लब में फिर शामिल हो गए हैं। गौतम अदाणी की टोटल नेटवर्थ बुधवार को 2.7 बिलियन डॉलर बढ़कर 100.7 बिलियन डॉलर हो गई। अदाणी की यह संपत्ति हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से ग्रुप पर बाजार में हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाने के बाद से सबसे ज्यादा है।

बता दें कि साल 2023 की शुरुआत में आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदाणी ग्रुप पर बाजार में हेराफेरी और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। हालांकि, इन आरोपों को

अदाणी ग्रुप ने पूरी तरह से खारिज किया था लेकिन इसके बाद भी अदाणी समूह के शेयर बुरी तरह फिसल गए थे जिससे अदाणी की संपत्ति भी घट गई थी।

अदाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों में पिछले हफ्ते जारी तिमाही नतीजों के बाद बुधवार को आठवें दिन तेजी आई। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, गौतम अदाणी अब दुनिया के 12वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अपने हमवतन मुकेश अंबानी से सिर्फ एक स्थान पीछे हैं। इस महीने की शुरुआत में जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, वहीं गौतम अदाणी की संपत्ति अभी भी 2022 के टॉप लेवल से करीब 50 अरब डॉलर नीचे



है। बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदाणी की टोटल नेटवर्थ में 80 अरब डॉलर से ज्यादा की गिरावट आई थी और यह 37.7 अरब डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गई थी।

मेटा ने भारत में फेसबुक, इंस्टाग्राम से 2.60 करोड़ खराब कंटेंट हटाए

वाशिंगटन ।

मेटा ने दिसंबर 2023 में भारत में फेसबुक की 13 नीतियों में 19.8 मिलियन से अधिक कंटेंट और इंस्टाग्राम के लिए 12 नीतियों में 2 करोड़ से अधिक कंटेंट हटा दिए हैं। मेटा ने कहा कि फेसबुक को 1-31 दिसंबर के बीच भारतीय शिकायत तंत्र के माध्यम से 44,332 रिपोर्टें मिलीं। इसने 33,072 मामलों में इसके ग्राहकों को उनके मुद्दों को हल करने के लिए टूल्स प्रदान किए। मेटा ने अपनी मासिक रिपोर्ट में आईटी

नियम, 2021 के अनुपालन में कहा कि इनमें विशिष्ट उल्लंघनों के लिए सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए पूर्व-स्थापित चैनल, सेल्फ-रेमोडिफिकेशन प्रवाह जहां वे अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, अकाउंट हक किए गए मुद्दों को संबोधित करने के तरीके आदि शामिल हैं।

अन्य 11,260 रिपोर्टों में से जहां विशेष समीक्षा की जरूरत थी, हमने अपनी नीतियों के अनुसार सामग्री की समीक्षा की और कुल 6,578 रिपोर्टों पर कार्रवाई की। शेष 4,682 रिपोर्टों



की समीक्षा की गई, लेकिन, हो सकता है कि उन पर कार्रवाई न की गई हो। मेटा ने कहा कि इंस्टाग्राम पर कंपनी को भारतीय शिकायत तंत्र के माध्यम से 19,750 रिपोर्टें प्राप्त हुईं। इनमें से हमने 9,555 मामलों में उपयोगकर्ताओं को उनके मुद्दों को हल करने के लिए टूल्स प्रदान किए।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 724 अंक, निफ्टी 212 अंक नीचे आया

मुंबई ।

घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के बाद भी आईटीसी के शेयरों में बिकवाली हावी रहने से आयी है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति की समीक्षा में आरबीआई के रेपो रेट को 6.5 फीसदी पर ही

बनाये रखने के फैसले से भी निजी बैंकों के शेयरों में गिरावट आई। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स अंत में 1.00 फीसदी करीब 723.57 अंक नीचे आकर 71,428.43 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं इसी प्रकार पचास शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.97 फीसदी तकरीबन 212.55 अंक

नीचे आकर 21,717.95 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के शेयर सबसे ज्यादा 3.54 फीसदी ऊपर आये। दूसरी ओर पावर ग्रिड, टीसीएस, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सनफार्मा और एनटीप्रसी के शेयर लाभ के साथ ही ऊपर आये। वहीं ब्रिटिश अमेरिकन टोबाको (बैट) के

आईटीसी में कुछ हिस्सेदारी बेचने की खबरों से भी कंपनी के शेयर 4 प्रतिशत गिरे। इसके अलावा कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले इंडिया, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, अल्ट्रा सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, मारुति, एशियन पेट्रोल सहित 22 कमानियों के शेयर नीचे आये। इससे पहले आज सुबह वैश्विक बाजारों में तेजी के बीच ही आरबीआई के

शाकाहारी थाली महंगी, मांसाहारी 13 फीसदी हुई सस्ती: रिपोर्ट

- जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में खाद्य मुद्रास्फीति अधिक रही

नई दिल्ली ।

पिछले एक साल में शाकाहारी थाली की कीमत 5 फीसदी बढ़ गई है, जबकि मांसाहारी थाली की कीमत में 13 फीसदी घट गई है। एक रिपोर्ट से यह बात पता चली है। रोटी चावल दर (आरआरआर) रिपोर्ट के अनुसार शाकाहारी थाली में रोटी, प्याज, टमाटर, आलू, चावल, दाल, दही और सलाद शामिल होता है। वहीं मांसाहारी थाली में शाकाहारी थाली के समान ही चीजें होती हैं, सिवाय इसके कि दाल को चिकन (ब्रायलर) से बदल दिया जाता है। इस साल जनवरी में शाकाहारी थाली की कीमत 28 रुपये थी, जो पिछले साल जनवरी में 26.6 रुपये थी। वहीं इसी अवधि में मांसाहारी थाली की कीमत 59.9 रुपये से घटकर 52 रुपये हो गई। रिपोर्ट में शाकाहारी थाली की कीमत बढ़ाने के लिए टमाटर और प्याज की ऊंची कीमतों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो पिछले साल क्रमशः 20 और 35 फीसदी बढ़ी थी। इसके अतिरिक्त चावल और दालों की कीमतों में

भी क्रमशः 14 और 21 फीसदी की वृद्धि हुई। शाकाहारी थाली की कीमत में वृद्धि से संकेत मिलता है कि जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में खाद्य मुद्रास्फीति अधिक रही। जनवरी 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.52 फीसदी दर्ज की गई, जिसमें खाद्य मुद्रास्फीति 5.94 फीसदी थी। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5.69 फीसदी और खाद्य महंगाई दर 9.53 फीसदी थी। मांसाहारी थाली की लागत कम हो गई क्योंकि उत्पादन बढ़ने के कारण ब्रायलर चिकन की कीमत में 26 फीसदी की गिरावट आई। मांसाहारी थाली की कुल लागत का 50 फीसदी हिस्सा ब्रायलर चिकन का होता है। दिसंबर 2023 की तुलना में दोनों थालियों की कीमत में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शाकाहारी और गैर-शाकाहारी थाली की कीमत में महीने-दर-महीने क्रमशः 6 फीसदी और 8 फीसदी की कमी आई है। कीमतों में कमी इसलिए हुई क्योंकि दिसंबर 2023 की तुलना में प्याज की कीमतों में 26 फीसदी और टमाटर की कीमतों में 16 फीसदी की गिरावट आई। यह कीमतों में गिरावट निर्यात प्रतिबंधों और उत्तरी और पूर्वी राज्यों से ताजा टमाटर की आवक के कारण स्पष्ट है। वृद्धि के कारण

डिजिटल मुद्रा को लेकर आरबीआई गर्वनर ने दिया बड़ा अपडेट

मुंबई ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पायलट परियोजना में 'ऑफलाइन लेन-देन' शुरूआत करने की घोषणा की। इसका सीधा मतलब है कि डिजिटल रुपये के उपयोगकर्ता सीमित इंटरनेट कनेक्शन वाले क्षेत्रों में भी लेनदेन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि प्रायोगिक परियोजना के तहत इसमें कार्यक्रम आधारित अतिरिक्त उपयोग को शामिल किया जाएगा। गवर्नर दास ने कहा, खराब या सीमित इंटरनेट संपर्क वाले क्षेत्रों में लेनदेन को सक्षम करने के लिए सीबीडीसी-खुदरा (रिटेल) में एक ऑफलाइन सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए पहाड़ी क्षेत्रों, ग्रामीण और शहरी स्थानों पर कई 'ऑफलाइन' समाधानों का परीक्षण किया जाएगा। दास ने कहा कि अभी इसके तहत बैंकों द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल रुपये वॉलेट का उपयोग करके व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) लेनदेन को सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा कि अब इस कार्यक्रम आधारित ऑफलाइन रूप से सक्षम करने का काम किया जाएगा। दास ने कहा कि कंपनियों भी अपने कर्मचारियों के लिए कारोबारी यात्रा जैसे कार्यक्रम आधारित खर्च में सक्षम हो सकेंगी। उन्होंने कहा, अतिरिक्त सुविधाएं जैसे वैधता अवधि या भौगोलिक क्षेत्र जिसके भीतर सीबीडीसी का उपयोग किया जा सकता है, को भी 'प्रोग्राम' किया जा सकता है।

आरबीआई की एमपीसी बैठक खत्म, रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर कायम

मुंबई ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने प्रमुख नीतिगत दलों यानी रेपो रेट को लगातार छठी बार 6.5 प्रतिशत पर कायम रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को रिजर्व बैंक की एमपीसी बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी।

- नीतिगत दर या रेपो दर 6.5 प्रतिशत पर बरकरार।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष के 7.3 प्रतिशत के अनुमान से कम है।
- चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 5.4 प्रतिशत रहेगी। 2024-25 में

यह घटकर 4.5 प्रतिशत पर आ जाएगा।

- व्याज दरों में कटौती का लाभ अभी पूरी तरह उपभोक्ताओं को नहीं मिली है।
- मौजूदा आर्थिक गति अगले वित्त वर्ष में भी बरकरार रहेगी।
- रबी बुवाई में सुधार, विनिर्माण क्षेत्र में निरंतर लाभप्रदता, 2024-25 में आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने के लिए सेवाएं मजबूत।
- निवेश चक्र गति पकड़ रहा है, निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में सुधार के संकेत।
- भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत, निरंतर वृद्धि पथ पर आत्मविश्वास से प्रगति कर रही है।
- सरकार राजकोषीय के सुदृढ़ीकरण पथ पर कायम है; घरेलू आर्थिक गतिविधियां

व्याज दर पर फैसले से पहले घरेलू बाजारों में शुरुआती कारोबार में तेजी रही। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 321.42 अंक उछलकर 72,473.42 अंक पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 80.55 अंक चढ़कर 22,011.05 अंक पर रहा। एशियाई बाजारों की बात करें तो जापान का निक्की, दक्षिण कोरिया का कॉस्मी और चीन का शंघाई कम्पोजिट लाभ में रहे,



जबकि हांगकॉंग का हैंगसेंग नुकसान में रहा। अमेरिकी बाजार बुधवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को 1,691.02 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई दर के 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान: आरबीआई

नई दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अगले वित्त वर्ष 2024-25 में मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है। जो चालू वित्त वर्ष 2023-24 के 5.4 प्रतिशत के अनुमान को तुलना में कम है। केंद्र ने आरबीआई को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रहे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने पाया कि घरेलू आर्थिक गतिविधियां अच्छी हैं। निवेश की मांग में तेजी, आशावादी व्यापारिक भावनाओं तथा बढ़ते उपभोक्ता विश्वास से इस पूरा समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा, "मुद्रास्फीति के मोर्चे पर बड़े तथा बार-बार आने वाले खाद्य मूल्यों के झटके महंगाई में कमी की गति को बाधित कर रहे हैं जो मुख्य मुद्रास्फीति को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा, अगले साल मानसून के सामान्य रहने पर 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके पहली तिमाही में पांच प्रतिशत, दूसरी तिमाही में चार प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जोखिम दोनों तरफ बराबर है। दास ने महंगाई को कम करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि एमपीसी ने रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत रखने का फैसला किया है।

एचएसबीसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड खुला

नई दिल्ली । एचएसबीसी म्यूचुअल फंड का नया फंड ऑफ (एनएफओ) एचएसबीसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड (एचएमएएएफ) गुरुवार को खुला जो 22 फरवरी को बंद होगा। कंपनी ने कहा कि यह इंडिक्री और इंडिक्री से संबंधित इंस्ट्रुमेंट्स, डेब्ट एवं मनी मार्केट सिक्योरिटीज तथा गोल्ड, सिल्वर इंटीएफ में निवेश करने के लिए एक ओपन-एंडेड योजना है। इस फंड का उद्देश्य दीर्घकालिक पूंजी वृद्धि प्रदान करना, अस्थिरता कम करने में मदद करना और विविधीकरण लेकर आना है। एचएमएएएफ सबसे ज्यादा लाभ के लिए विभिन्न एसेट्स में निवेश की नीति पर काम करेगा। इस फंड में प्लेक्सिफैड ट्यूबिफॉण का पालन किया जाएगा और मौजूदा मूल्यांकन सुविधा के आधार पर विभिन्न मार्केट कैम्प में निवेश किया जाएगा। निवेश की प्रक्रिया में अनेक तत्वों, जैसे व्यवसाय की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी लाभ, कॉर्पोरेट प्रशासन का ट्रैक रिकॉर्ड, सस्टेनेबिलिटी की विधियों, वित्तीय शक्ति, रिस्क-रिवाइड मूल्यांकन, आय के मुख्य ड्राइवर्स आदि पर विचार किया जाएगा। इस लांच के बारे में एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के एक वे रिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत में अनेक तत्व विकास की कहानी लिख रहे हैं, जिनमें बढ़ती घरेलू खपत, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान, डेब्ट बाजारों में सुधार, विदेशी निवेश, मजबूत सरकारी सुधार आदि शामिल हैं। इन तत्वों और बाजार की अस्थिरता को देखते हुए एक मल्टी एसेट एलोकेशन रणनीति की जरूरत है, ताकि विभिन्न एसेट वर्ग भिन्न-भिन्न आर्थिक स्थितियों के आधार पर अलग-अलग प्रदर्शन कर सकें।

करीना कपूर केपीजी मसालों की ब्रांड एम्बेसडर बनीं

नई दिल्ली । मारवल चाय समूह के संस्थापक परवीन जैन ने अपने मसाला ब्रांड केपीजी के लिए बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। जैन राष्ट्रीय स्तर पर केपीजी ब्रांड के तहत मसालों को लाने के लिए तैयार हैं। केपीजी मसालों के साथ करीना की सहभागिता न केवल एक सेलिब्रिटी की है, बल्कि मसालों की स्टोरी टेलर के तौर पर होगी। करीना कपूर खान ने कहा कि सस्यम यह एक साथ साथ काम करेगा का गठबंधन है। मेरे लिए केपीजी एक ऐसा ब्रांड है जिसमें भरोसा तथा विश्वसनीयता कूट कूट कर भरी हुई है। इन्हे तैयार करते समय स्वच्छता, स्वास्थ्य के साथ स्वाद की बारीकियों का विशेष ध्यान रखा गया है।

एचडीएफसी बैंक ने सस्टेनेबल बांड इश्यू से जुटाए 300 मिलियन डॉलर

नई दिल्ली ।

एचडीएफसी बैंक ने कहा कि उसने अपने पहले सस्टेनेबल वित्त डॉलर-मूल्य वाले बांड इश्यू के माध्यम से 300 मिलियन डॉलर जुटा लिए हैं। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से देश के सबसे बड़े निजी ऋणदाता ने अपने तीन साल के स्थिरता बांड की कीमत 5.196 फीसदी वील्ड रखी थी। यह तीन-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी उपज पर 95 आधार अंक (बीपीएस) है। एचडीएफसी बैंक ने कहा कि यूएस ट्रेजरी पर 108 आधार अंकों के अंतर के साथ पांच साल की अवधि के लिए अतिरिक्त 450 मिलियन डॉलर जुटाए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) जो सरकार के स्वामित्व में है, ने जनवरी की शुरुआत में अपने 10 बिलियन डॉलर के मध्यम अवधि के नोट कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पांच साल का पेपर जारी करके अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के एक समूह से 600 मिलियन डॉलर जुटाए। एचडीएफसी बैंक ने कहा कि वह सबसे पहले इस रकम का इस्तेमाल हरित और सामाजिक ऋणों के वित्तपोषण के लिए करेगा और बाकी का उपयोग सामान्य बैंकिंग गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए करेगा। एचडीएफसी बैंक के ग्रुप हेड-ट्रेजरी अरूपु रक्षित ने छोटें और मध्यम उद्यमों का जिक्र करते हुए कहा कि स्थायी वित्त कट के माध्यम से जुटाए गए धन को इलेक्ट्रिक वाहनों, एसेसमेंट और किफायती आवास के लिए ऋण देने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर क्यों की गई कार्रवाई, गर्वनर दास ने किया खुलासा

मुंबई ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से दिग्गज फिनटेक कंपनी पेटीएम के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस कार्रवाई के कारण का खुलासा किया है। बता दें कि आरबीआई ने पिछले सप्ताह पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपने खातों और डिजिटल वॉलेट में 1 मिनट से नई जमाएं स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया था। इस फैसले पर केंद्रीय बैंक ने अपने नोटिस में कहा था कि निगरानी संबंधित खामियों और नियमों के गैर-अनुपालन का हवाला देकर आरबीआई ने यह प्रतिबंध लगाया है। कंपनी के मुताबिक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक से 30 करोड़ से ज्यादा वॉलेट और 3 करोड़ बैंक खाते जुड़े हुए

हैं। कंपनी ने कहा है कि अब तक 80 लाख फास्टेज जारी किए हैं। इस बीच आरबीआई गवर्नर दास ने बताया कि यदि सभी चीजों का अनुपालन किया गया होता, तब केंद्रीय बैंक किसी रेगुलेशन वाली इकाई के खिलाफ कार्रवाई क्यों करता। गवर्नर दास ने कहा कि पेटीएम मामले को लेकर व्यवस्था के बारे में चिंता की कोई बात नहीं, हम केवल भुगतान बैंक की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आरबीआई के डिटी गवर्नर स्वामीनाथन जे. ने कहा कि "लगातार गैर-अनुपालन" के लिए पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया। आरबीआई गवर्नर ने साफ कर दिया कि जब बैंक और एनबीएफसी प्रभाव कदम



नहीं उठाते हैं, हम कारोबार से संबंधित पाबंदियां लगाते हैं। उन्होंने कहा, एक जिम्मेदार रेगुलेटर होने के नाते व्यवस्था के स्तर पर स्थिरता या जमाकर्ताओं अथवा ग्राहकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर हम कदम उठाते हैं। उन्होंने कहा, आरबीआई पेटीएम को लेकर की गयी कार्रवाई के बारे में लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए अगले सप्ताह एफएक्यू (बार-बार पूछे जाने वाले सवाल) जारी करेगा।

दुनिया के पांच मुस्लिम देशों में वैलेंटाइन डे मनाने पर लगी हुई है रोक

क्वालालंपुर । हर साल 14 फरवरी को दुनिया की अलग-अलग जगहों पर वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। लेकिन ऐसे 5 मुस्लिम देश भी हैं जहां इस दिन को सेलिब्रेट करने की मनाही है। वैसे तो वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाता है, लेकिन शुरुआत 7 फरवरी को ही हो जाती है। लोग इसके लिए खूब प्लानिंग करते हैं, लेकिन कुछ देशों में इसे मनाने पर प्रतिबंध है। इसलिए वहां वैकेशन मनाने नहीं जाना है वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। दुनिया में 5 देश ऐसे हैं जहां वैलेंटाइन डे के कल्चर को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। बता दें ? कि मलेशिया में साल 2005 में इस देश में फेसला लिया गया था कि वहां वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। इसके लिए फतवा भी जारी किया गया था। इस दिन को नैतिक पतन और युवा पीढ़ी की बर्बादी माना जाता है। हालांकि लोग चोरी-छिपे आज भी इसे मना लेते हैं लेकिन सार्वजनिक तौर पर कुछ किया तो गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरा देश है उज्बेकिस्तान, यहां भी साल 2012 तक वैलेंटाइन डे मनाया जाता था। बाद में इस इस्लामिक देश के शिक्षा मंत्रालय और नैतिक मूल्यांकन का प्रचार देखने वाले विभाग ने इस पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। तीसरा देश ईरान है, इसमें भी साल 2010 में वैलेंटाइन डे पर आधिकारिक पाबंदी लगाई गई थी। यहां भी सरकार की ओर से कहा गया कि ये नैतिक पतन वाला सेलिब्रेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा देता है। चौथा है पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहां भी इस दिन को इस्लामिक मूल्यांकन के खिलाफ माना जाता है। साल 2018 में यहां एक याचिका भी दायर हुई थी, जिसमें वैलेंटाइन डे को इस्लामिक शिक्षा के खिलाफ बताया गया था। कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी। अब बात करते हैं सऊदी अरब में वैलेंटाइन डे की, यहां भी इसे बढ़ावा नहीं दिया जाता।

घायल, बीमार फिलिस्तीनियों की जान बचाने बेहतर इलाज की जरूरत

गाजा । गाजा पट्टी में घायल, बीमार फिलिस्तीनियों की जान बचाने के लिए उनके बेहतर इलाज की जरूरत बताई जा रही है। गाजा पट्टी में कम से कम 11,000 घायल और बीमार फिलिस्तीनियों को इलाज के लिए तत्काल दूसरे देशों में भेजे जाने की जरूरत बताई जा रही है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल-केदरा ने एक बयान में कहा कि मरीजों की जान बचाने की जरूरत है क्योंकि गाजा में चल रहे इजरायली युद्ध के कारण चिकित्सा कर्मचारियों और उपकरणों की कमी के बीच मंत्रालय उनके लिए सभी चिकित्सा सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कहा कि वर्तमान में मंत्रालय उत्तरी गाजा में अस्पतालों के कुछ हिस्सों को संचालित करने में सक्षम है, लेकिन हमें अपना काम जारी रखने के लिए चिकित्सा आपूर्ति और इंधन के आगमन और दक्षिण से चिकित्सा टीमों की वापसी की आवश्यकता है। इस संबंध में मंत्रालय ने कहा कि गाजा पर चल रहे इजरायली हमलों में अब तक महिलाओं और बच्चों सहित 27,708 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 67,147 अन्य घायल हुए हैं। बताया जा रहा है ? कि फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूनआरडब्ल्यूएफ) के अनुसार, पट्टी में इसकी 84 प्रतिशत स्वास्थ्य सुविधाएं इजरायली हमलों के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।

चलती कार पर किया ड्रोन से हमला, तीन लोगों की हुई मौत

बगदाद । इराक की राजधानी पूर्वी बगदाद में बुधवार को एक चलती कार पर ड्रोन से हमला करने के दौरान तीन लोगों की मौत के समाचार मिले हैं। बताया जा रहा है ? कि यहाँ एक अर्धसैनिक हथियार बल की कार पर हुए ड्रोन हमले में तीन लोगों की मौत हो गई। गुह मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि हमला शाम को हुआ जब एक ड्रोन ने अल-मशतल पड़ोस में अर्धसैनिक बलों के एक वाहन पर बमबारी की। बमबारी से हुए विस्फोट के कारण आग लग गई और वाहन के अंदर तीन लोगों की मौत हो गई। इराकी सुरक्षा बलों ने घटनास्थल को सील कर दिया और एक नागरिक सुरक्षा टीम आग बुझाने के लिए रवाना हुई। सूत्र ने कार में मारे गए एक व्यक्ति की पहचान अबु बाकिर अल-सादी के रूप में की, जो इराक में ईरान समर्थित सशस्त्र समूह काबिल हिज्रुब्रह्म का कमांडर था, जिसका हथियार बल या पोपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स से संबंध है। हमले के बाद इराकी सुरक्षा बलों ने किसी भी सुरक्षा उल्लंघन की आशंका के चलते भारी किलेबंदी वाले ग्रीन जॉन के आसपास सुरक्षा उपायों को मजबूत कर दिया, जिसमें अमेरिकी दूतावास सहित कुछ मुख्य सरकारी संस्थान और विदेशी राजनयिक मिशन शामिल हैं। इराकी जेअल ऑपरेशंस कमांड ने अपने संबद्ध मीडिया आउटलेट सिवयोरिटी मीडिया सेल के माध्यम से एक बयान में कहा कि स्थानीय समय रात 9-35 बजे अल-मशतल पड़ोस में एक ड्रोन ने एक नागरिक कार को निशाना बनाया जिससे कार में सवार लोगों की मौत हो गई। यह हमला जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हाल ही में हुए ड्रोन हमले के बाद चल रही अमेरिकी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा था।

अमेरिका में पीएचडी कर रहे भारतीय मूल के छात्र की मिली लाश, आत्महत्या का अंदेशा

वाशिंगटन। अमेरिका के पड़र्य विश्वविद्यालय में एक 23 वर्षीय भारतीय-अमेरिकी छात्र की लाश मिली है। अधिकारियों ने सिर पर खुद को मारी गई बंदूक की गोली से उसकी मौत होना बताया है। समीर कामथ जो एक अमेरिकी नागरिक था वह 5 फरवरी को शाम लगभग 5 बजे विलियम्सपोर्ट, इंडियाना में तैड ट्रस्ट क्रो ग्राव के जंगल में मृत पाया गया। वॉरेन काउंटी कोरोनर कार्यालय के कोरोनर जस्टिन ब्रुमेट ने बुधवार को कहा कि 6 फरवरी को क्रॉफर्ड्सविले, इंडियाना में कामथ का फोरेंसिक शव परीक्षण किया गया था। जिसमें मौत का प्रारंभिक कारण सिर में गोली लगने का घाव है और कामथ की मृत्यु आत्महत्या से हुई है। इसके साथ ही कहा गया है कि कई अन्य स्थानीय और संघीय एजेंसियों के साथ मिलकर वॉरेन काउंटी कोरोनर कार्यालय द्वारा व्यापक जांच की गई है। एजेंसी ने कहा कि अहम मौत का प्रारंभिक कारण और तरीका जारी करने में सक्षम है। यह जानकारी जारी करने से पहले, कामथ के परिवार को परिणामों के बारे में बता दिया गया था। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कामथ मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टर थे। जानकारी के अनुसार उन्होंने मैसाचुसेट्स एमहर्ट्ट विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 2021 की गर्मियों में पड़र्य आए। कामथ को उनके लिंवडइन प्रोफाइल के अनुसार, 2025 में डॉक्टरों का कार्यक्रम से स्नातक होना था। कामथ की मौत अमेरिका में भारतीय मूल और भारत के छात्रों के बीच दुःख घटनाओं में एक है। बता दें ? कि पिछले महीने भी एक अन्य पड़र्य छात्र 19 वर्षीय नील आचार्य, जिसके लापता होने की सूचना मिली थी, पड़र्य विश्वविद्यालय वेस्ट लाफायट परिसर में मृत पाया गया था। बता दें ? कि नील आचार्य अमेरिकी नागरिक थे। आचार्य पर शव परीक्षण के दौरान कोई आघात या महत्वपूर्ण चोट नहीं पाई गई और इस समय किसी भी तरह की गड़बड़ी का संदेह नहीं है।

गागरा पर्वत पर है दुनिया की सबसे गहरी गुफा, तह तक पहुंचने में लगे 50 साल

अब्काजिया । अब्काजिया में गागरा पर्वत श्रृंखला में दुनिया की सबसे गहरी गुफा होने का दावा किया जा रहा है। वेरीओवकिना नाम की इस गुफा की तह तक जाने में 50 साल का वक्त लगा है। जानकारों की मौं तो अब्काजिया में गागरा पर्वत श्रृंखला की वेरीओवकिना गुफा इतनी ज्यादा गहरी है कि इसमें बुर्ज खलीफा जैसी लगभग 3 इमारतें पूरी तरह से समा जाएं। इतना ही नहीं, लंदन स्थित शार्ड जैसी 7 इमारतों को ये निगल सकता है। इतनी गहरी होने के कारण ही इसके तह तक पहुंचने में 50 साल से ज्यादा का समय लगा था। दरअसल अब्काजिया के गागरा पर्वत श्रृंखला में पाई जाने वाली वेरीओवकिना गुफा एक रूसी समर्थित अलावावादी क्षेत्र है। यह कभी जॉर्जिया द्वारा शासित था और जर्मन में 7,293 फीट तक फैला हुआ है। इस रूसी गुफा के तह तक पहुंचने के लिए 30 से अधिक बार प्रयास किए गए, जिसमें 50 साल से ज्यादा समय लगा पड़ा। हालांकि, इसके तलहटी तक पहुंचने के बावजूद कहा जाता है कि अभी और भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। गुफा का प्रवेश द्वार 2 पहाड़ों के बीच स्थित है, जिन्हें फोट्रेस और अम्ब्रेला के नाम से जाना जाता है। बताते हैं कि इसके अंदर जाना और रहस्यों को खोजने का प्रयास करना खतरा से भरा है। 2018 में ऐसा ही एक भयावह मामला सामने आया था, जब तलहटी में उतरी एक टीम अनाकन आई बाढ़ में लगेभग डूब गई थी। इस डरावनी घटना के गवाह रहे नेशनल ज्योग्राफिक के गुफा फोटोग्राफर रॉबी शोन ने कहा कि गुफा के अंदर एक होल से पानी आने लगा और हम मुंह फाड़े देखते रहे। वहां बने हमारे घर के अंदर पूरा पानी घुस गया। मैं उस आवाज को कभी नहीं बूल सकता।



लेबनान में इजरायली हवाई हमले में मारे गये लेबनान के शिते अमल मूवमेंट के तीन सदस्यों की मौत पर रोते बिलखते हुए लोग ।

हमास की जड़ें खत्म करने से पहले युद्ध विराम नहीं होगा, इजरायल ने शर्तों को खारिज किया

तेल अबीव (एजेंसी) । इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संकल्प लिया है कि हमास को जड़ से खत्म करने के बाद ही हम लेंगे। यही वजह है कि वे दुनिया के किसी भी देश को सुनने को तैयार नहीं है। संघर्ष विराम की हर एक शर्त को नेतन्याहू ठुकरा रहे हैं। उनके मन में केवल और केवल हमास का ख़ात्मा है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को संघर्ष विराम और बंधकों को छोड़ने संबंधी समझौते के लिए हमास की शर्तों को खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने शर्तों को भ्रामक बताया और कहा कि गाजा पर हमास के नियंत्रण को समाप्त करने तक युद्ध जारी रहेगा। उन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त होने तक हमास के खिलाफ युद्ध लड़ने का संकल्प जताया।

हमास के जवाबी प्रस्ताव के अनुसार, पहले चरण के 45 दिनों के दौरान इजरायली जेलों में बंद सभी फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों की रिहाई के बदले हमास सभी इजरायली महिला बंधकों, 19 वर्ष से कम उम्र के पुरुषों, बुजुर्गों और बीमारों को रिहा करेगा। दूसरे चरण के दौरान शेष पुरुष बंधकों को मुक्त कर दिया जाएगा, और तीसरे चरण में लड़ाई में मारे गए लोगों के अवशेषों का आदान-प्रदान किया जाएगा। प्रस्तावों के मुताबिक, हमास ने उम्मीद जताई है कि सीजनघर के तीसरे चरण के अंत तक दोनों पक्ष युद्ध की समाप्ति से जुड़े एक समझौते पर पहुंच जाएंगे। नेतन्याहू ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी



ब्लिंकन से मुलाकात के तुरंत बाद यह टिप्पणी की। ब्लिंकन संघर्ष विराम समझौते की उम्मीद में क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं। नेतन्याहू ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमास की भ्रामक मांगों के सामने आत्मसमर्पण करने से बंधकों को मुक्त नहीं कराया जा सकेगा, बल्कि यह एक और नरसंहार को आमंत्रित करेगा। उन्होंने कहा, हम पूरी तरह से जीत को और बढ़ रहे हैं। नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की कसम को दोहराते हुए कहा कि इजरायल के पास उसके (हमास) सर्वनाश के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों...

हमास के सभी लोगों को खत्म किया जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमास के खिलाफ पूर्ण जीत ही गाजा लड़ाई का एकमात्र समाधान है। इजरायल और फिलिस्तीन के गाजा पर नियंत्रण रखने वाले संगठन हमास के बीच पिछले साल अक्टूबर से जंग छिड़ी है। इस दौरान हजारों लोग मारे गए हैं। इस बीच हमास ने तीन चरणों वाले युद्धविराम का प्रस्ताव सांपा रखा है। रिपोर्ट के अनुसार, हमास ने यह प्रस्ताव पिछले सप्ताह कुतर और मिस्र के मध्यस्थों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के जवाब में भेजा है।

चीन के कर्ज के बोझ में दबा मालदीव, आईएमएफ ने चेताया

वाशिंगटन । अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने चेतावनी दी है कि मालदीव, जिसने चीन से भारी मात्रा में उधार लिया है, 'बाढ़ और समग्र ऋण संकट के उच्च जोखिम' में बना हुआ है। इसमें यह भी कहा गया कि 'तत्काल नीति समायोजन' की आवश्यकता है। नवंबर 2023 में चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजुजू के सत्ता संभालने के बाद से बीजिंग ने मालदीव के लिए अधिक फंडिंग का वादा किया है। मुइजुजू ने पिछले महीने बीजिंग की यात्रा के बाद विकास निधि के लिए 'नि:स्वार्थ सहायता' के लिए चीन को धन्यवाद दिया। आईएमएफ ने मालदीव के विदेशी ऋण का विवरण नहीं दिया लेकिन कहा कि तत्काल नीति समायोजन की आवश्यकता है। आईएमएफ ने देश की अर्थव्यवस्था की समीक्षा के बाद कहा कि महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों के बिना, कुल राजकोषीय घाटा और सार्वजनिक ऋण ऊंचा रहने का अनुमान है। मालदीव में बाहरी और समग्र ऋण संकट का उच्च जोखिम बना हुआ है। यह द्वीप राष्ट्र, जो अपने सफेद रेत वाले समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है और जहां की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान लगभग एक तिहाई है, कोविड -19 महामारी से आर्थिक रूप से उबर चुका है।

पाकिस्तान के चुनावी रुझान, बनेगी नवाज की सरकार

करांची (एजेंसी) । पाकिस्तान में आज युववार को नई सरकार के लिए वोटिंग हो रही है। ऐसे में आज के दिन यहां पर मोबाइल सेवा स्थगित कर दी गई है, जिसके चलते आम जनता परेशान हो गई है। चुनावी रुझान की बात करें तो इमरान खान के जेल में होने की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ रस में आगे बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जारी वोटिंग के बीच पाकिस्तान में मोबाइल नहीं चलने से हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान की आवाज चाह कर भी मोबाइल नहीं चला पा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर पूरे पाकिस्तान में मोबाइल सेवाओं को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। इस संबंध में पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि देश के राष्ट्रीय चुनाव में मतदान शुरू होने के साथ ही सुरक्षा मजबूत करने के लिए पाकिस्तान ने गुलेवार को मोबाइल फोन सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यह फैसला चुनाव से पहले आतंकवादी हमलों में वृद्धि के बीच

आया है। इतना ही नहीं, जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने समर्थकों से मतदान के बाद परिणाम घोषित होने तक मतदान केंद्रों के बाहर डटे रहने का आग्रह किया था। माना जा रहा है कि इन्हीं वजहों से मोबाइल सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है। जबकि पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इसे देश में आतंकवादी घटनाओं के परिणामस्वरूप कदम उठाना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार घटनाओं में बहुमूल्य जानें चली गईं, कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और सभावित खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं, इसलिए देश भर में मोबाइल सेवाओं का अस्थायी निलंबन किया गया है। बलूचिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी प्रांत में बुधवार को चुनाव कार्यालयों के पास हुए दो विस्फोटों में 26 लोगों की मौत हो गई। मोबाइल सेवाओं को बंद करने से वहां की आवाज मोबाइल नहीं चला पाने से परेशान हो रही हैं, उन्हें देश-दुनिया की कोई खबर भी मिल पा रही है।

पाकिस्तान में खत्म हुआ मतदान, अब परिणाम की बारी, शुरू हुई काउंटिंग

करांची (एजेंसी) । मतदाताओं ने अपने फैसले पर मुहर लगा दी है और अब यह निर्धारित करने के लिए वोटों की गिनती शुरू कर दी है। जल्द ही पता चल जाएगा कि लोगों ने दुनिया के पांचवें सबसे बड़े लोकतंत्र में 855 निर्वाचन क्षेत्रों में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए अपने प्रतिनिधियों के रूप में किसे चुना है। 2024 के चुनाव विधिभ्रंश पहलुओं में 2018 के पिछले चुनावों से आगे निकल गए, जिसमें 48 अरब रुपये का रिकॉर्ड बजट आवंटन, कुल आबादी के 50प्र. से अधिक मतदाताओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि, स्वतंत्र उम्मीदवारों का अभूतपूर्व अनुपात, कुल लगभग 18,000 शामिल हैं। उम्मीदवारों और 260 मिलियन मतपत्रों को छापने के लिए पर्याप्त मात्रा में कागज की आवश्यकता होती है।

14 लाख से अधिक मतदान कर्मचारी 90,675 मतदान केंद्रों पर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं - जिनमें से 16,766 को अत्यंत संवेदनशील घोषित किया गया है। मतदान प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए 8 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ, पूरे देश में शाम 5 बजे तक जारी रहा, पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने कई निर्वाचन क्षेत्रों से अनियमितताओं की रिपोर्ट के बावजूद मतदान के लिए समय बढ़ने



का फैसला नहीं किया। सुरक्षा स्थिति के कारण देश भर में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान नरहोक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सहित शीर्ष राजनीतिक दलों ने सेवाओं की तत्काल बहाली की मांग की है। चुनाव परिणाम आधी रात के कुछ घंटों बाद पूरे होने की उम्मीद है और ईसीपी के परिणाम प्रबंधन

प्रणाली के माध्यम से पूरा संकलन शुरूवाना के शुरुआती घंटों में किया जा सकता है। जिन्यू न्यूज को चुनाव परिणाम प्राप्त हो गया है, हालांकि, निर्धारित समय से पहले परिणाम प्रसारित करने पर ईसीपी के प्रतिबंध के कारण इसे शाम 6 बजे के बाद प्रसारित किया जाएगा।

जाम्बिया में हैजा से 600 की मौत, भारत ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया

लुसाका । जाम्बिया में इस समय हैजा की बीमारी फैली हुई है । इससे अब तक करीब 600 मौतें हो चुकी हैं । इस बीच भारत ने जाम्बिया में मानवीय सहायता भेजी है । भारत ने एक कॉमिश्नल जहाज से लगभग 3.5 टन मानवीय सहायता भेजी है । इसमें पानी को शुद्ध करने वाली सलाई, क्लोरिन की गोलियां और ओआएएस पाउच आदि शामिल है । कोरोना काल के दौरान अनेकों देशों को मदद भेजने वाले भारत ने एक बार फिर से एक अफ्रीकी देश की मदद को हाथ आगे बढ़ाए हैं । इस देश में एक भीषण बीमारी का प्रकोप फैला हुआ जिससे सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है । रिपोर्ट के अनुसार, जाम्बिया अपने इतिहास में सबसे खराब स्वास्थ्य संकटों में से एक का सामना कर रहा है । यहां अक्टूबर 2023 से हैजा से लगभग 600 लोग मारे जा चुके हैं और 15,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं । जाम्बिया के 10 प्रांतों में से नौ में हैजा के मामले सामने आए हैं । हालांकि इनमें से अधिकांश मामले राजधानी लुसाका से सामने आए हैं । लुसाका की आबादी लगभग 30 लाख है । यहां अधिकारियों ने नेशनल हीरोज स्टैडियम के बाहर एक अस्थायी उपचार केंद्र स्थापित किया है । हैरानी की बात ये है जाम्बिया में हैजा से होने वाली मृत्यु दर लगभग 4 प्रतिशत है जोकि सामान्य से काफी ज्यादा है । हैजा में मृत्यु दर आमतौर पर 1 प्रतिशत से कम होती है । यूनिसेफ ने इसे एक विनाशकारी संख्या बताया है । प्रकोप को देखते हुए सरकार ने एक सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू किया है । अधिकारी बीमारी से प्रभावित समुदायों को हर दिन 24 लाख लीटर स्वच्छ पानी उपलब्ध करा रहे हैं । देशव्यापी जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया है ।

मौजूदा भारत अब अमेरिका पर भरोसा नहीं करता: निकी हेली



वाशिंगटन (एजेंसी) । पूरी दुनिया में बढ़ती भारत की धाक के चर्चे चुनावों में भी होने लगे हैं। अमेरिकी चुनाव में भारत की बात हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल भारतवंशी दावेदार निकी हेली ने कहा कि मौजूदा भारत अब अमेरिका पर भरोसा नहीं करता है और उसे कमजोर समझता है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत और रूस के करीबी रिश्तों पर भी निशाना साधा। निकी ने कहा कि भारत स्मार्ट बन रहा है और उसने मौजूदा हालातों में रूस के साथ दोस्ती बनाए रखी।

राष्ट्रपति पद की महत्वाकांक्षी रिपब्लिकन उम्मीदवार निकी हेली ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ भागीदार बनना चाहता है, लेकिन अभी तक उन्हें नेतृत्व करने के लिए अमेरिकियों पर भरोसा नहीं है। निकी ने यह भी कहा कि भारत ने मौजूदा वैश्विक स्थिति में चतुर्घाई दिखाई है और रूस के साथ करीब रहा है। एक इंटरव्यू में 51 साल की हेली ने कहा कि फिलहाल भारत अमेरिका को कमजोर मानता है। निकी ने कहा, मैंने भारत को भी डील किया है। मैंने (प्रधानमंत्री

नरेंद्र) मोदी से बात की है। भारत हमारे साथ भागीदार बनना चाहता है। वे रूस के साथ भागीदार नहीं बनना चाहते। लेकिन समस्या यह है कि भारत को हमारी जीत पर भरोसा नहीं है। उन्हें हम पर भरोसा ही नहीं है कि हम नेतृत्व कर सकते हैं। वे अभी देख रहे हैं कि हम कमजोर हैं। भारत ने इस मामले में हमेशा चतुराई दिखाई है। उन्होंने सच में इसे चतुराई से खोला है, और वे रूस के करीब रहे हैं। क्योंकि यहीं से उन्हें अपने बहुत सारे सैन्य उपकरण मिलते हैं।

साउथ कैरोलाइना की पूर्व गवर्नर हेली ने कहा, जब हम फिर से नेतृत्व करना शुरू करेंगे, अपनी कमजोरी को दूर करना शुरू करेंगे, तभी हमारे दोस्त, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया भी ऐसा करेंगे। उन्होंने जापान का उदाहरण देते हुए कहा कि उस देश ने चीन पर कम निर्भर होने के लिए खुद को अरबों डॉलर का प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने फॉक्स बिजनेस न्यूज से कहा, भारत ने भी चीन पर निर्भरता कम करने के लिए खुद को एक अरब डॉलर का प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने गठबंधन बनाने की शुरुआत करने की जरूरत है।



और सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

मुझे भाबीजी घर पर हैं का नाम पसंद नहीं आया: सौम्या टंडन



हाल ही छोटे परदे की अभिनेत्री सौम्या टंडन ने 'भाबीजी घर पर हैं' शो छोड़ने को लेकर खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने ये भी खुलासा किया कि उन्हें पहले शो का टाइटल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। इस वजह से उन्होंने शुरुआत में साफ मना कर दिया था। सौम्या टंडन ने कहा, 'जब मुझे शो ऑफर हुआ तो मुझे नाम पसंद नहीं आया। मैंने कहा पागल हो गए हो। प्लीज मुझे भाभी मत कहो। मैं काफी समय तक शो रिजेक्ट करती रही क्योंकि मुझे टाइटल अच्छा नहीं लगा। 6-7 महीने तक लगातार रिजेक्ट करने के बाद मैंने कहा कि मुझे नॉन फिक्शन शो चाहिए और फिर मैंने डॉस इंडिया डॉस के लिए 4 साल तक काम किया। मैं डेली शॉप्स नहीं करना चाहती थी।' सौम्या टंडन ने कहा, 'फिर मैंने 'भाबीजी घर पर हैं' के लिए हामी भर दी। जब शो में काम शुरू किया तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि मुझसे गलती हो गई। मेरा करियर खत्म हो गया। मैं भाभीजी बनकर ही मरूंगी। यहां तक कि शो शुरू होने से एक हफ्ते पहले मैंने मेकर्स से पूछा कि अगर मैं शो छोड़ना चाहू तो उन्होंने कहा कि हम आप पर मुकदमा कर देंगे। फिर मैंने आखिरकार शूटिंग शुरू कर दी और मुझे प्यार हुआ कि यह एक शानदार शो है और इसे बहुत अच्छे से लिखा गया है। मेरे डायरेक्टर शानदार थे। को-स्टार्स के तौर पर अच्छे लोग मिले। इसलिए मैंने सोचा कि यहां पर सीखने के लिए बहुत कुछ है और फिर बहुत मजा आया। इस तरह शो में कई साल निकल गए।' जब कई साल बाद सौम्या टंडन ने 'भाबीजी घर पर हैं' शो छोड़ने का फैसला किया तो मेकर्स ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं मानीं।

उन्होंने बताया, 'मेकर्स ने मुझसे कहा कि मत जाओ। इस तरह पैसा कमाना आसान नहीं है। आपका शो बहुत पॉपुलर है। लेकिन मैंने मुझे एक्ससाइट नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि एक ही लाइफ है और मुझे अलग-अलग तरह की चीजें करनी हैं। कॉन्टेंट के लिहाज से बाहर भी बहुत सारी दिलचस्प चीजें हो रही थीं। पहले टीवी और फिल्मों के बीच बड़ा अंतर था। लेकिन अब एक्सप्लोर के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। मैं खुद को एक्सप्लोर करना चाहती थी।' बता दें कि टीवी एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने पॉपुलर शो 'भाबीजी घर पर हैं' से खूब नाम कमाया है। अनीता भाभी का रोल निभाकर वह घर-घर फेमस हो चुकी हैं। हालांकि, कुछ समय पहले ही सौम्या टंडन ने शो को अलविदा कह दिया था।

72 वर्ष की उम्र के बावजूद जीनत अमान की फिल्मों में वापसी

भारतीय सिनेमा की महार अभिनेत्री जीनत अमान अब 72 साल की उम्र में एक बार फिर पद पर वापसी कर रही हैं। सिने गलियारों से खबर मिली है कि गुजरे जमाने की ख्यातनाम अभिनेत्री जीनत अमान अभिनय में वापसी करने जा रही हैं। इस बात की जानकारी निर्माता मनीष मल्होत्रा ने दी है। बताया जा रहा है कि जीनत अमान बन टिकी नाम से बन रही फिल्म से वापसी करने जा रही हैं। जीनत अमान के साथ इस फिल्म में शबाना आजमी और अभय देओल नजर आने वाले हैं। मनीष मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर तीनों स्टार्स की एक तस्वीर साझा करते हुए फिल्म की जानकारी सभी को दी है। इंस्टा पर मनीष मल्होत्रा ने लिखा, 'द ग्रेट शबाना आजमी और जीनत अमान दोनों का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, उनकी फिल्मों से लेकर उनके गानों से लेकर उनके कपड़ों तक, वे एक-दूसरे से बहुत अलग हैं और दोनों के पास यादगार फिल्में हैं, जो हम सभी को पसंद हैं।' उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वे दशकों के बाद हमारे दूसरी प्रोडक्शन फिल्म बन टिकी के लिए एक साथ आ रही हैं। यह एक संवेदनशील फिल्म है, जिसे फराज आरिफ अंसारी द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। दोनों के साथ फिल्म में अभय देओल भी नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग इस महीने शुरू होने जा रही है।

विवादों में फंसी फिल्म फाइटर, एयर फोर्स विंग कमांडर ने भेजा नोटिस

ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर एक बड़े विवाद में फंस गई है। इस फिल्म में एयर फोर्स के फाइटर पायलट्स की कहानी को दिखाया गया है। फिल्म के एक सीन में ऋतिक और दीपिका एयर फोर्स की यूनिफॉर्म पहने एक दूसरे को किस करते दिखाया गया था। अब इंडियन एयर फोर्स के असम में पोस्टेड विंग कमांडर सौम्यदीप दास ने इस सीन पर आपत्ति जताते हुए स्टार कास्ट और डायरेक्टर को नोटिस भेजा है। विंग कमांडर दास का कहना है कि किसिंग सीन में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण का एयर फोर्स की यूनिफॉर्म का अपमान है। उनका कहना है कि एयर फोर्स की यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की रक्षा के लिए त्याग, अनुशासन और अटूट समर्पण की निशानी है। सीन में एक्टर्स को इंडियन एयर फोर्स के सदस्य के रूप में देखा जा सकता है। उनका यूनिफॉर्म में ये हरकत करना सरासर गलत है।

फोर्स के लीगल नोटिस में कहा गया है कि इस पवित्र प्रतीक का इस्तेमाल फिल्म में रोमांटिक एंगल दिखाने के लिए करना गलत है। ये हमारे देश की सेवा में अनगिनत जवानों द्वारा किए गए बलिदान की गरिमा का अवमूल्यन करता है। साथ ही ये यूनिफॉर्म में खराब व्यवहार को सामान्य बनाता है, जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने वालों को सौंपी गई जिम्मेदारी के खिलाफ खतरनाक मिसाल कायम करता है। नोटिस में आगे कहा गया है कि एयर फोर्स की यूनिफॉर्म पहने अफसरों का यूं पब्लिक में रोमांटिक होना सिर्फ नियमों का उल्लंघन ही नहीं है, बल्कि उनके किरदारों और प्रोफेशनल व्यवहार को भी गलत तरीके से दिखाता है। विंग कमांडर सौम्यदीप दास ने फाइटर के मेकर्स से इस सीन को हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने जवानों से दुनिया के सामने माफ़ी मांगने की बात भी कही।



फिल्म द क्रू रिलीज होगी गुड फाइडे के मौके पर

फिल्म द क्रू गुड फाइडे के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म में तब्बू, करीना कपूर खान, कृति सेनन और दिलजीत दोसांझ प्रमुख भूमिका में हैं। वहीं कपिल शर्मा भी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आने वाले हैं। बालाजी मोशन पिक्चर्स की बालाजी टेलीफिल्म्स और अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशंस नेटवर्क गुड फाइडे के मौके पर अपनी एक ग्रीड कमिश्नरियल एंटरटेनर के साथ गर्मियों के शुरुआती दिनों में हम सभी को एंटरटेन करने के लिए तैयार है। इसी के साथ कुछ ही दिनों में एक पोस्टर के साथ फिल्म के नए टाइटल की अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। दरअसल एकता आर कपूर और रिया कपूर ने अपनी अगली फिल्म द क्रू के लिए नई रिलीज डेट फाइनल कर ली है जो 29 मार्च 2024 है।

इसी के साथ मेकर्स द क्रू के एक बिल्कुल नए टाइटल की घोषणा भी करेंगे और कुछ ही दिनों में एक नया पोस्टर भी लॉन्च करने की तैयारी में हैं। तो एक्विशन की दुनिया में यात्रा के लिए खुद को तैयार कर लीजिए, जो खामियों और दुर्घटनाओं की कॉमेडी की एक रोलरकोस्टर राइड होगी जो आपको हंसाने के लिए एक माहौल सेट करती है। स्टर्गाएंग एयरलाइन इंडस्ट्री के बैकड्रॉप पर बेशक यह फिल्म तीन वर्किंग महिलाओं के जीवन की यात्रा करेगी, जो कुछ अनुचित परिस्थितियों का सामना करती हैं और झूठ के जाल में फंस जाती हैं।

बता दें, इस फिल्म की शूटिंग मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर मार्च 2023 में शुरू की थी। अब आखिरकार वे फिल्म की नई रिलीज डेट, 29 मार्च 2024 के साथ एक और एक्ससाइटिंग घोषणा के साथ सामने आ चुके हैं। ये फिल्म एकता आर कपूर और रिया कपूर का तीसरा सहयोग है। वहीं फिल्म की न्यू रिलीज डेट की घोषणा ने वास्तव में फिल्म के लिए दर्शकों के उत्साह को बढ़ा देती है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज का काउंटडाउन भी शुरू हो गई है और इस बीच लोगों को अब द क्रू के नए टाइटल का इंतजार रहेगा। एकता आर कपूर और रिया कपूर की गतिशील जोड़ी को एक बार फिर से साथ लाते हुए, यह विशाल और दिलचस्प कहानी यकीनन एक बड़े कमाश्नियल फिल्म के लिए नए स्टैंडर्ड सेट करेगी।

द क्रू बालाजी टेलीफिल्म्स और अनिल कपूर फिल्म एंड कम्युनिकेशंस नेटवर्क के लिए एक बड़ी रिलीज होने जा रही है और 29 मार्च 2024 को बड़े पद पर रिलीज होगी। तब्बू, करीना कपूर खान, कृति सेनन, दिलजीत दोसांझ और कपिल शर्मा की स्पेशल अपीयरेंस के साथ यह फिल्म निश्चित रूप से दर्शकों को सुपर एक्ससाइट करने वाली है। राजेश कृष्णन द्वारा निर्देशित, फिल्म की शूटिंग पूरे भारत में विभिन्न लोकेशन्स पर की गई है, जिसमें से ज्यादातर शूटिंग मुंबई में हुई है।

देशभक्ति फिल्म 'द बुल के लिए कड़ी मेहनत कर रह चुलबुल पांडे

सुपरस्टार सलमान खान तीन दशक से भी ज्यादा समय से फैंस का मनोरंजन कर रहे हैं। भले ही वे 58 साल के हो चुके हैं, लेकिन लोगों के बीच आज भी उनका क्रेज बना हुआ है। वहीं सलमान भी उन्हें निराश नहीं करते और पूरी गर्मजोशी से मिलते हैं। हाल ही सलमान के कुछ फैंस उनसे उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में मिले और वे तस्वीरें और वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए। तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि सलमान ने जबर्दस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। उनके इस रूप को देख फैंस हैरान हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने विषुवधन के डायरेक्शन वाली देशभक्ति फिल्म 'द बुल' के लिए काफी मेहनत की है और वे कठोर प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं। फिल्म में सलमान ब्रिगेडियर फारुख बुलसारा का किरदार निभा रहे हैं। 125 साल बाद सलमान और करण जोहर इस फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं।



दिल को छू लेने वाली कहानी है फिल्म ब्लैक की

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा, संजय लीला भंसाली की जीवत प्रतिभा और उनकी अवधारणा और अहसास की सुंदरता में अप्लॉज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित, संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक को रिलीज हुए आज 19 साल हो गए हैं। बालीवुड फिल्म निर्माता भंसाली की फिल्म ब्लैक के नेटपिलवस पर पहले डिजिटल प्रीमियर के मौके पर बिग बी ने कहा कि यह एक ऐसी टाइमलेस फिल्म है जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। फिल्म में विजनरी फिल्म मेकर की बेजोड़ नजर, सिनेमेटिक ब्रिलियंस, और कहानी सुनाने का शानदार तरीके का उद्घरण भी देखने मिलता है। ब्लैक के रिलीज के लगभग 20 साल बाद भी, दर्शक फिल्म से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। फिल्म में अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज और रानी मुखर्जी जैसी बेहद टैलेण्टेड एक्ट्रेस को एक्टिंग को आज भी दर्शकों

द्वारा याद किया जाता है। फिल्म की श्रेष्ठता सच में भंसाली की फिल्मों के बनाने के तरीके का सबूत है, जिसमें वे एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाते हैं जो मानव भावनाओं की जटिलताओं में गहराई से उतरती है। फिल्म को 19वीं एनिवर्सरी मनाते हुए, मेगारस्टार अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, टी 4910 - संजय लीला भंसाली की जीवत प्रतिभा और उनकी अवधारणा और अहसास की सुंदरता में। इसके अलावा, रानी मुखर्जी ने आगे इस बारे में बात करते हुए कहा है, एक अभिनेता और एक व्यक्ति के रूप में ब्लैक का मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। सबसे आसान कामों के लिए भी साइड लैंडिंग का इस्तेमाल करने की चुनौतियाँ एक बहुत बड़ा सीखने का अनुभव था और बहुत दिल को छूने वाली थीं... ब्लैक हमेशा मेरे लिए बहुत खास रहेगा, क्योंकि इसने मुझे जीवन के बारे में और

उसके लिए शुक्रगुजार होने के बारे में बहुत कुछ सिखाया। अमित अंकल के साथ काम करना बिना किसी शक मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में से एक था... उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने में सक्षम होना और उन्हें अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए देखने का मौका मिलना अपने आप में मेरे लिए एक मास्टरक्लास की तरह था। और बेशक, मेरे पसंदीदा निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ काम करना... मेरा मानना है कि ब्लैक एक फिल्म निर्माता के रूप में संजय के सबसे अच्छे कामों में से एक है। उन्होंने ब्लैक के साथ जो किया, वह कुछ ऐसा है कि आने वाले साल में अभिनेताओं, फिल्म लवर्स और दर्शकों की पीढ़ियों उनकी प्रतिभा को देख सकेगी। ब्लैक मेरे लिए टैट पोल् फिल्मों में से एक रही है, जो हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ी रहेगी। मैं इस बात से सबसे ज्यादा खुश हूँ कि आखिरकार यह बेस्ट

प्लेटफॉर्मों में से एक पर रिलीज हो रही है और जो लोग इसे देखने से चूक गए थे, वे अब एक बटन के क्लिक पर काले रंग का जादू देख पाएंगे। टुडम!!! फ्रॉब, जैसे ही ब्लैक नेटपिलवस पर अपनी जगह बना रही है, यह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए इस सिनेमेटिक जेम के जादू का अनुभव करने का एक शानदार मौका है। नेटपिलवस पर 19वीं एनिवर्सरी की ग्रैंड रिलीज न सिर्फ फिल्म के महत्व को श्रद्धांजलि देती है, बल्कि भारतीय सिनेमा के उस्ताद के रूप में संजय लीला भंसाली की विरासत की पुष्टि करती है, साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि इसका असर दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचे। भंसाली की ब्लैक टाइम (यूरोप) में टैन बेस्ट मूवीज ऑफ द ईयर 2005 में दुनिया भर की फिल्मों के बीच पांचवें स्थान पर रही।